NEW ERA LEASING AND FINANCE LIMITED

Regd. Office: 23, Motia Khan, Rani Jhansi Road, New Delhi- 110055 **CIN:** L67120DL1984PLC018800; **Tel No.:** 011-69999350;

Email ID: neweraleasingfinance@gmail.com; Website: www.neweraleasingfinance.com

Date: 12th November, 2022

To,
The Executive Director,
The Calcutta Stock Exchange Limited,
7, Lyons Range, Dalhousie,
Kolkata- 700001, West Bengal
(Scrip Code: 24303)
ISIN: INE616Q01011

Subject: Newspaper Clippings of the Un-Audited Financial Results for the Quarter

ended on 30th June, 2022

Dear Sir(s),

With reference to the captioned subject, we enclose herewith the newspaper clippings of the Un-Audited financial results pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for the quarter ended on 30th June, 2022 published by the Company in the newspapers named as "Financial Express" (English language) and "Jansatta" (Hindi language) dated 12th November, 2022.

This is for your information and records.

Thanking you,

For New Era Leasing and Finance Limited

(Director)

DIN:-06804507

Rohtash\Sharma

Office Address: 23, Motia Khan, Rani

Jhansi Road, New Delhi- 110055

Encl: As mentioned above

FINANCIAL EXPRESS

TRITON CORP LIMITED CIN:L74899DL1990PLC039989

Regd. Office: R-4, Unit No-102, 1st Floor, Khirki Extension Main Road, Malviya Nagar, New Delhi-110017 Email: cs@tritoncorp.in, Phone: 011-49096562

	UN-	AUDITED FII	NANCIAL RE	SULTS FOR T	HE QUARTE	R AND HAL	F YEAR END	ED SEPTEME	SER 30, 2022				
	(Rs. In Lakh except EPS of CONSOLIDATED												
Particulars		Quarter Ende			Half Year Ended Year Ended		Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended	
	30.09.2022	30.06.2022 (Un-audited)	30.09.2021	30.09.2022 (Un-audited)	30.09.2021	31.03.2022 (Audited)	30.09.2022 (Un-audited)	30.06.2022	30.09.2021	30.09.2022 (Un-audited)	30.09.2021	31.03.2022 (Audited)	
Total income from operations	(On-addited)	(On-addited)	(On-addited)	(On-addited)	(On-addited)	(Mudited)	(On-addited)	(on-addited)	(on-addited)	(on-addited)	(On-auditeu)	(Addited)	
Net Profit/(Loss) before tax and share of (Loss)/profit in associates & Joint ventures	(5.31)	(5.98)	(4.93)	(11.29)	(9.85)	(21.28)	(5.31)	(6.03)	(4.96)	(11.34)	(9.88)	(21.74	
Net Profit/(Loss) for the period after tax and exceptional items	(5.31)	(5.98)	(4.93)	(11.29)	(9.85)	(21.28)	(5.31)	(6.03)	(4.96)	(11.34)	(9.88)	(250.23	
Total Comprehensive (loss) / Income for the period	(5.31)	(5.98)	(4.93)	(11.29)	(9.85)	(21.28)	(5.31)	(6.03)	(4.96)	(11.34)	(9.88)	(250.23	
Paid up Equity Capital (Face value of Re. 1/- each)	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	
Reserve excluding revaluation reserves(As per last audited Balance Sheet)		03				(923.35)				8		(1,913.70	
Earning Per Share (of Rs.1/- each) (not annualised) Basic Diluted	(0.003) (0.003)	(0.003) (0.003)	(0.002) (0.002)	(0.006) (0.006)	(0.005) (0.005)	(0.011) (0.011)	(0.003) (0.003)	(0.003) (0.003)	(0.002) (0.002)	(0.006) (0.006)	0.0000000000000000000000000000000000000	(0.125 (0.125	

The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Un-audited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2022 filed with the Stock Exchange under the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Un-audited Financial Results for the guarter and half year ended 30th September, 2022 are available on the Stock Exchange Website (www.bseindia.com) and on the Company's Website (www.tritoncorp.in).

The above Standalone and Consolidated Financial Statement, prepared in accordance with Indian Accounting Statndards ("Ind AS") as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

> By the order of the Board For Triton Corp Limited

> > Meena Rastogi (Director) DIN: 01572002

"IMPORTANT"

Date: 11.11.2022

Place: New Delhi

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in

'FORM NO. INC-26" (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state/Union Territory to another] Before the Central Government (Regional Director), Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi

any manner whatsoever.

Rules, 2014 as amended upto date In the matter of SUN FLOWER CAPITAL SERVICES PVT LTD (CIN: U67120CH1994PTC014661)

In the matter of the Companies Act, 2013

Rule 30(6)(a) of the Companies (Incorporation

Section 13(4) of Companies Act, 2013 and

having its registered office at Plot No. 45, 1st Floor Industrial Area, Phase 1, Chandigarh-160001 NOTICE

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make an application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting held on Monday, 31st October, 2022 to enable the Company to change its Registered office from "Union Territory of Chandigarh" to "National Capital Territory of Delhi"

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its registered office

as mentioned above. On behalf of the Board For Sun Flower Capital Services Pvt Ltd Sumit Kumar Place: Chandigarh Director Date: 12.11.2022 DIN: 08306597

Classifieds

PERSONAL

INVESTEMENT/ **BUSINESS** OPPORTUNITY

(1) EPC - Engineering & Construction company based in Gujarat dealing with PSUs PAN India with good track record and experienced Promoters is seeking for Strategic Investors for expansion of

(2) Eco. Hotel in Ahmedabad with 65 rooms, banquet, restaurant, solar roof top, having tie up with corporates is for sale / 100% promotors stake

(3) Reputed Jwellers in Gujarat are looking for investment for expansion and opening of new showrooms

Please send your interest at invstrich@gmail.com

NEW ERA LEASING AND FINANCE LIMITED

Regd. Office: 23, Motia Khan, Rani Jhansi Road, New Delhi- 110055 Email ID: neweraleasingfinance@gmail.com, CIN: L67120DL1984PLC018800, Contact no: 011-68888824;

Extract of Un-audited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2022

(Rs. In Lakhs) Year ended Quarter ended **Particulars** No. 30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021 31.03.2022 (Audited) (Un-Audited) (Un-Audited) (Audited) 18.51 **Total Income from Operations** 1.60 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional 3.52 0.95 0.09 (0.36)and/or Extraordinary items) 3.52 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional (0.36)0.95 0.09 and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional (0.36)3.52 0.95 0.09 and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period Comprising 3.52 0.09 0.95 Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each) 400.00 400.00 400.00 400.00 (43.42) Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the financial year 2021-2022 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations): (0.0091)0.0879 0.0237 0.0022 0.0237 0.0022 (b) Diluted (0.0091)0.0879

Notes:

Date: 11th Novermber, 2022

Place: New Delhi

- The Company is having only one business activity so the segment reporting under Ind AS-108 is not required. 2. The Above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their meeting
- Figures of previous periods were re-grouped/re-classified wherever necessary to confirm to the periods of current periods.

Indian Accounting Standards are applicable on the Company w.e.f 1st April 2019.

For New Era Leasing and Finance Limited

ROHTASH SHARMA (Director) DIN: 06804507

On Behalf of the Board

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW

(Area of Jurisdiction-Part of Uttar Pradesh) (Summons to Defendants Under Section 19(3) of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993) Original Application No. 563/2022 Date: 22.09.2022

CANARA BANK ...APPLICANT VERSUS

RANJANA TIWARI AND OTHERS ...DEFENDANTS

- Ranjana Tiwari W/o Late Sanjay Tiwari E-1/117 Sector-B, Aliganj, District, Lucknow U.P. 226022.
- Vimal Kumar S/o Shri I.P. Singh, C-1510, Indira Nagar, Lucknow-226016.
- Rajesh Kumar Agnihotri S/o Shri Nihal Chandra Agnihotri 128, Yash Nagar, Faizullaha Ganj, Sitapur

In the above noted application you are required to file reply in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant of his counsel/duly authorized agent after publication of the summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 25.11.2022 at 10:30 A.M. failing which the applicant shall be heard and decided in your

Given under my hand and seal of the Tribunal on this the 22 September 2022. Registrar Debts Recovery Tribunal,

Lucknow

State Bank of India RACPC- SECTOR -B, NEAR RAM RAM BANK CHAURAHA, ALIGANJ, LUCKNOW

POSSESSION NOTICE (for movable property under Rule 6(1))

Whereas, The undersigned being the Authorized officer of the State Bank of India, RACPC under the SBI SOP for Car Loan Seizure and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a 13(2). The Bank issued demand notice on the date mentioned against account and stated herein after calling upon them to repay the amount, within 60 days from the date of receipt of said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the Property/ Vehicle described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said Rule on the date mentioned against the account.

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of State Bank of India, RACPC for the amounts and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets. Details of properties where possession had been

taken is as follows:			
NAME & ADDRESS OF THE BORROWER/A/C NO./	DESCRIPTION OF THE MOVABLE PROPERTY	Amount Outstanding	DATE OF FIRST NOTICE
BRANCH	MORTGAGED	Outstanding	SECOND NOTICE
BORROWER: Ms. Renu Bhandari D-79 Keshav Vihar, Kalyanpur, Lucknow A/c no.: 38805046949 [Car Loan] BRANCH: Awadh Nawab	Vehicle Regn. No.: UP32-KZ5995 Asset/Vehilce Make GRANDi10 SPORTZ 1.2 ENGINE NO. G4LAJM107847 CHASIS NO.	Rs. 6,41,260/- as on 29.08.2022 + Interest and other charges	29.08.2022 04.11.2022

MALA851CLJM942427 **AUTHORIZED OFFICER, STATE BANK OF INDIA** Date: 12.11.2022 Place: Lucknow

RICH UNIVERSE NETWORK LIMITED CIN: L51100UP1990PLC012089

R/O: IInd FLOOR, 7/125, C-2, SWAROOP NAGAR, KANPUR - 208002, U.P. E-Mail: investors@richuninet.com, WEB:www.richuninet.com Ph: 0512-2540293 **UN-AUDITED QUARTERLY RESULTS FOR THE PERIOD ENDED ON**

500.00	30TH SEPT	EMBER, 2022	All	amts. In Lakhs
SI. No.	PARTICULARS	Quarter ended 30th September, 2022	Corresponding 3 months ended in the previous 30th September, 2021	
1.	Total Income from Operations	-1.77	0.55	823.67
2.	Net Profit / (Loss) for the period			
	(before Tax, Exceptional and/or			
	Extraordinary items#)	-5.64	-4.61	6.38
3.	Net Profit / (Loss) for the period			
	before tax (after Exceptional and/or			
	Extraordinary items#)	-5.64	-4.61	6.38
4.	Net Profit / (Loss) for the period			
	after tax (after Exceptional and/or			
	Extraordinary items#)	-5.64	-4.61	5.23
5.	Total Comprehensive Income for the			
	period [Comprising Profit / (Loss) for			
	the period (after tax) and Other			
	Comprehensive Income (after tax)]	-5.64	-4.61	5.23
6.	Equity Share Capital	725.28	725.28	725.28
7.	Reserves (excluding Revaluation			
	Reserve)	5.39	-	14.89
8.	Earnings Per ShareofRs 10/-each			
	(for continuing and discontinued			
	operations)-	0.00	0.00	
	1. Basic:	0.00	0.00	0.007
	2. Diluted:	0.00	0.00	0.007

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formatof the Quarterly, Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity.

Note:

Place : Kanpur

Date: 11.11.2022

financiale

For RICH UNIVERSE NETWORK LIMITED SHASHWAT AGARWAL DIN: (00122799)

LIC HOUSING FINANCE LTD First Floor, Jeevan Bhawan-1, 43, Naval Kishor Road, Hajratganj, Lucknow- 226001 POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

Under Appendix-IV, Rule 8(1)
The undersigned being the Authorized Officer of LIC HOUSING FINANCE LTD., under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule-3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice in the accounts mentioned hereunder on the dates mentioned before their names calling upon the borrowers and guarantors to repay the amount mentioned in the notice along with interest within sixty days from the date of receipt of said notice. The borrowers and guarantors having failed to repay the amount, notices are hereby given to the borrowers and quarantors in particular and the public in general that the undersigned has taken the possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules

public in general are hereby c will be subject to the charge	st each property.The borrowers and guarantors autioned not to deal with the property. Any deal of LIC HOUSING FINANCE LTD., for the all hose possession has been taken are as follows	ing with the prop mounts and inte	erty
	Area Office: Agra II		
Name of Borrowers/ Guarantors	Details of Mortgaged Property	Date & Amount of Demand Notice	Date of Posse- ssion
Borrower: Mr. Alkesh Singh S/o Mr. Tale Singh And Mr. Shyambir Singh S/o Mr. Munshi Lal (Guarantor) Loan A/c No. 112400000538	Property Situated at Arazi No. 135, Mauza-Sirajmau, Pargana, Tehsil And District- Etawah, Area- 139.40 Sq. Mtr., In The Name Of Mr. Alkesh Singh S/o Mr. Tale singh, Bounded: East: Rasta 25 feet wide, West: Boundary of Yadav flour and rice mill, North: plot of seller, South: rasta 25 feet wide.	Rs. 17,97,267.61 + Intt. & other	, ,
Borrower: Mr. Abhishek Yadav S/o Mr. Kushal Pal Singh, Mr. Kushal Pal Singh S/o Late Mr. Hakim Singh (Co-Borrower) And Mr. Saurabh Shukla S/o Mr. Raj Kishor Shukla (Guarantor). Loan A/c No. 112400000649	Property Ek Kita Residential House Mohalla Ahir Tola Kasba & Tehsil Jaswant Nagar, Distt. Etawah, Area- 139.50 Sq Mtr. In The Name Of Mr. Abhishek Yadav S/o Mr. Kushal Pal Singh, Bounded: East Gali 2.31 Meter Wide, West House Of Shiv Mangal Singh Etc., North: House Of Kushal Pal South: Plot Of Vinod Yadav.	Rs. 47,88,047.24 + Intt. & other	11.202

Place: Etawah

Be Swasth Healthcare Limited (Formerly known as Ujala Commercials Limited)

CIN: L93000DL1985PLC021397 Regd. Office: A-6/343B, Janta Flats, Paschim Vihar, New Delhi 110063

Email:cs@be-swasth.com, Contact No. 01149879687 EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022 (Amount in Lacs except EPS)

		Quarter Ended			Half Year Ended		
PARTICULARS	30-Sep-22 Un-Audited	30-Jun-22 Un-Audited	30-Sep-21 Un-Audited	30 Sep 22 Un-Audited	30 Sep 2021 Un-Audited	31-Mar-22 Audited	
Total Income from operations	7.25	8.86	2.26	16.11	4.51	9.02	
Net Profit/ (Loss) Before Exceptional and Extraordinary Items and Tax	(0.27)	1.21	(5.59)	0.94	(7.99)	(18.89)	
Net Profit/ (Loss) after taxes, minority interest and share of profit/(loss) of associates	(0.27)	1.21	(5.59)	0.94	(7.99)	(24.01)	
Total Comprehensive Income for the period	(0.27)	1.21	(5.59)	0.94	(7.99)	(24.01)	
Paid-up equity share (face value ₹ 10/- each)	111.90	111.90	111.90	111.90	111.90	111.90	
Reserves excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	8.0		- 4			(13.19)	
Earning Per Share (of ₹ 10/- each) (not annualised) A) Basic B) Diluted	(0.02)	0.11	(0.50)	0.08	(0.71)	(2.15)	

Place: New Delhi Date: 11.11.2022

. The above Un-Audited Financial Results of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on Friday, November 11, 2022. The Limited Review Report of the Statutory Auditors is being filled with the Metropolitan Stock exchange of India Limited. The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the guarter and half year ended September 30, 2022, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2022along with the Limited Review Report of the Statutory Auditors is available on the website of the Stock Exchange i.e. www.msei.in and of the Company i.e. www.be-swasth.in. For Be Swasth Healthcare Limited

(Formerly known as Ujala Commercials Limited Pranshu Poddar DIN: 09203812



Income Tax Department Central Board of Direct Taxes




Revised Instruction for constitution and functioning of 'Local Committees to deal with Taxpayers' Grievances from High-Pitched Scrutiny Assessment'

CBDT has issued revised Instruction for Constitution and Functioning of Local Committees (LC) through F.No.225/101/2021-ITA-II, dated 23.04.2022 to deal with taxpayers' grievances arising out of high-pitched Scrutiny Assessment. The salient features are:

- LCs, comprising 3 members of Pr.CIT/CIT rank, have been constituted in each Pr. CCIT region, including the Pr. CCIT(Exemptions) and Pr. CCIT (International Taxation).
- Grievances, if any, relating to assessments completed under Faceless Assessment may be sent at e-mail id samadhan.faceless.assessment@incometax.gov.in. For non-faceless assessments, the same may be sent to the office of Pr. CCIT concerned, physically or through
- The grievances so received shall be forwarded to LC of the Pr. CCIT concerned, which shall acknowledge the same.
- After due examination, the LC shall submit a report, preferably within 2 months from the end of the month of receipt of grievance, treating the order as High-Pitched/Not High-Pitched, along with the reasons, to the Pr. CCIT concerned.
- The Instruction also provides for initiation of suitable administrative action against the officer concerned, in cases where assessments are found by the LC to be high-pitched or where there is non-observance of principles of natural justice, non-application of mind or gross negligence of Assessing Officer/Assessment Unit.

The complete Revised Instruction dated 23.04.2022 in F.No.225/101/2021-ITA-II is available at g https://incometaxindia.gov.in/Lists/Latest%20News/Attachments/518/Instruction-225-101-2021.pdf



 @incometaxindiaofficial @ @incometaxindia.official

https://www.incometaxindia.gov.in/ https://www.incometax.gov.in/

Public Notice For E-Auction For Sale Of Immovable Properties

Corporate Office at Plot No.98, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon-122015. (Haryana) and Branch Office at:- Plot No. 30/30E. Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter "Act"). Whereas the Auhorized Officer ("AO") of IIFL-HFL ha taken the possession of the following property/ies pursuant to the notice issued U/S 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospections. with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS & AS IS WHAT IS BASIS" for realization of IIFL-HFL's dues, The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: www.bankeauctions.com.

Co-Borrower(s) / Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	Immovable property/ Secured Asset	Date of Physical Possession	Reserve Price	Date of Inspection of property
1. Mr.	17-Sep -2021	All that part and parcel of the	17-Oct -2022	Rs. 16,82,700/-	07-Dec-2022 1100 hrs -1400 hrs
Shrikant	Rs.18,44,308/-	property bearing Flat No- E 200,	Total Outstanding	(Rupees Sixteen	Contact:- Mr.Jay
Singh	(Rupees Eighteen	admeasuring 55 sq. yards, 2Nd	As On Date	Lakh Eighty Two Thousand Seven	Kumar at
2. Mrs.Gayatri	Lakh Forty Four Thousand Three	Floor, Mansa Ram Park Block E,		Hundred Only)	9910999001
Singh.	Hundred Eight Only)	Uttam Nagar, West Delhi, Delhi,		**	EMD Last Date
3. Shrikant	,	India Pincodo:110050	(Rupees Seventeen	Earnest Money Deposit (EMD)	09-Dec-2022
Singh	Bid Increase Amount	mala, i mode. i 10033	Lakh Sixty One	Rs.1,68,270/-	till 5 pm.
(Prospect No	Rs.25,000/-		Thousand Four	(Rupees One Lakh	Date/ Time of E-
IL10049872 &	(Rupees Twenty Five		Hundred Seventy	Sixty Eighty Thousand Two Hundred Seventy	Auction
IL10077068)	Thousand Only)		Six Only)	Only)	14-Dec-2022 1100 hrs-1300 hrs.
Mode of Payment	t:- All payment shall be m	ade by demand draft in favour of "I	FL Home Finance Limit	ed" pavable at Gurugram	or through RTGS/NEFT

The accounts details are as follows: a) Name of the Account:- IIFL Home Finance Ltd., b) Name of the Bank:- Standard Chartered Bank, c) Account No:-9902879 followed by Loan Number, d) IFSC Code:-SCBL0036001 e) Bank Address: Standard Chartered Bank, 90 M.G. Road, Fort, Mumbai-400001

For participating in e-auction, Intending bidders required to register their details with the Service Provider https://www.bankeauctions.com well in advance and has to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their "Tender FORM" along with the payment details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office. The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed in the last

5 minutes of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes. The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AO and the balance 75% of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be in the prescribed mode of paymen The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricit charges, land and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property

Bidders are advised to go through the website https://bankeauctions.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction for detail terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceedings. For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider E mail ID:-support@bankeauctions.com, Support Helpline Numbers:@7291981124/25/26.and any property related query Mr. Jitendra Gupta @ 9999682823, Email :-jitendra.gupta1@iifl.com,

Notice is hereby given to above said borrowers to collect the household articles, which were lying in the secured asset at the time of taking physical possession within 7 days, otherwise IIFL-HFL shall not be responsible for any loss of property under the circumstances. Further the notice is hereby given to the Borrower/s, that in case they fail to collect the above said articles same shall be sold in accordance with Law.

In case of default in payment at any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled and the amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale 10. AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and condition of tender/auction without assigning any reason thereof. In case of any dispute in tender/Auction, the decision of AO of IIFL-HFL will be final.

STATUTARY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8 (6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

Place:-New Delhi, Date: 11-Nov-2022

The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date of Tender/Auction, failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost. Sd/- Authorised Officer, IIFL Home Finance Limited

DELPHI

DELPHI WORLD MONEY LIMITED (Erstwhile EbixCash World Money India Limited)

CIN: L65990MH1985PLC037697 Regd. Office: 8th Floor, Manek Plaza, Kalina CST Road, VidyaNagri Marg, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400 098.

Tel: +91-22-62881500, Email: corp.relations@ebixcash.com, Website: www.indiaforexonline.com EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2022

	ľ		Quarter Ende	d	Half Vos	r Ended	Year Ended
S.	Particulars	30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021			30.09.2022		
No.	ratuculars	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	30.09.2021 Unaudited	Audited
1	Total Income from operations	2,370.44	2,364.45		4,734.89	3,843.24	7,342.09
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax	448.10	526.85	352.03	974.95	1,004.97	1,396.46
3	Net Profit/(Loss) for the period after tax	376.6	371.28	233.65	747.96	603.09	792.32
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income]	357.56	370.72	232.15	728.28	601.59	784.27
5	Paid-up Equity Share Capital	1,112.79	1,112.79	1,112.79	1,112.79	1,112.79	1,112.79
6	Other equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						
7	Earnings per share (for continuing and discontinuing operations) (of INR 10/- each) (not annualised)						
	(a) Basic (INR)	3.39	3.34	2.1	6.72	5.42	7.12
	(b) Diluted (INR)	3.39	3.34	2.1	6.72	5.42	7.12

- The above is an extract of the un-audited financial results for the guarter and half year ended 30th September, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the un-audited financial results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com/www.nseindia.com) and Company's website www.indiaforexonline.com.
- The above unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 11th November, 2022.

DATE: 11TH NOVEMBER, 2022

New Delhi

PLACE: NOIDA

Authorized Officer

FOR DELPHI WORLD MONEY LIMITED

(ERSTWHILE EBIXCASH WORLD MONEY INDIA LIMITED)

SATYA BUSHAN KOTRU CHAIRMAN

(in Rs. Lakh)

01729176

Date:- 12.11.2022





वृत्त कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, कानपुर की निविदा सूचना पत्र सं0-2029 / एस.ई.-कानपुर / टी.क्य्-III / 01 दिनांक 11.11.2022 द्वारा सूतमिल आवासीय योजना इटावा में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 4 मंजिल फ्लैट्स के निर्माण कार्य हेतु ई निविदा (E Tender) के माध्यम से आमंत्रित की गयी है। इन निविदाओं से सम्बन्धित विस्तृत विवरण परिषद की वेबसाईट http://upavp.in एवं http://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती हैं। अधीक्षण अभियन्ता

कार्यालय ग्रा.पं.किशुरिहाई, वि.खं. ददरील, शाहजहांपुर

समस्त जीएसटी में पंजीकृत फर्मों को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत किशरिहार्ड. विकास खण्ड-ददरौल में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा की धनराशि से ग्राम पंचायत विकास योजना से स्वीकृत निम्नलिखित कार्य कराये जाने हैं। अतः इन कार्यों हेतु प्राक्कलन के अनुसार निमार्ण सामग्री की आपूर्ति हेतु दिनांक 15.11.2022 को सायं 05 बजे तक सीलबन्द निविदायें ग्राम पंचायत कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं। निविदाएं दिनांक 16.11.2022 को 11 बजे निविदादाताओं/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएंगी। किसी भी निविदा को

क्रम	कार्य का नाम	आवश्यक सामग्री	अभ्युक्ति
संख्या			मात्रा एवं सामग्री की
	ग्राम पंचायत किशुरिहाई विकास खण्ड ददरौल (शाहजहांपुर) में मन्दिर से लखपति के मकान तक निर्माण कार्य। अनुमानित लागत- 3.72 लाख		पूर्ण जानकारी ग्रा.पं. कार्यालय से सम्पर्क कर ली जा सकती है। जिसकी सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है।
हसमु	खी, ग्राम प्रधान	अनिल	कुमार सिंह, सचिव

CAREER INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND HOSPITAL I.I.M. Road, Ghailla, Lucknow- 226013 (U.P.)

E-mail- careermedical@careertrust.in Contact: 0522-2851181, 2851182 Requirement of faculty for MBBS, MD/ MS(UG&PG)

Anatomy-Prof 1, Assoc. Prof 1, A.P.2, Physiology- Prof.1, Assoc. Prof.1, A.P.2, Biochemistry- Prof 1, Assoc. Prof.1, A.P.2. Pharmacology- Prof 1, Assoc. Prof 1, A.P.2, Pathology- Prof.1 Assoc. Prof.3, A.P.4, Microbiology- Prof 1, Assoc. Prof.1, A.P.2, Forensic Medicine- Prof.1, Assoc. Prof.1, A.P.1, Comm. Medicine-Prof.1, Assoc. Prof.3, A.P.3, Gen. Medicine- Prof.1, Assoc. Prof.3. A.P.7, Respiratory Med.- Prof.1, Assoc. Prof.1, A.P.1, Dermatology Prof. 1, Assoc. Prof. 1, A.P. 1, Psychiatry-Prof. 1, Assoc. Prof 1, A.P. 1 Paediatrics- Prof.1, Assoc. Prof.1, A.P.2, Gen. Surgery- Prof 1. Assoc. Prof 3, A.P.7, Opthalmology- Prof 1, Assoc. Prof 1, A.P.1, Orthopaedics- Prof.1, Assoc. Prof 1, A.P.2, Oto-Rhino Lgy. (E.N.T.)- Prof. 1, Assoc. Prof. 1, A.P. 1, Obst. & Gynae- Prof 1, Assoc. Prof. 1, A.P.3, Anaesthesiology- Prof 1, Assoc. Prof. 3, A.P.5, Radio-Diagnosis- Prof 1, Assoc. Prof 2, A.P.2, Apply with in 1 week from date of published. PRINCIPAL & DEAN

RICH UNIVERSE NETWORK LIMITED CIN: L51100UP1990PLC012089

R/O: IInd FLOOR, 7/125, C-2, SWAROOP NAGAR, KANPUR - 208002, U.P. E-Mail: investors@richuninet.com, WEB:www.richuninet.com Ph: 0512-2540293 UN-AUDITED QUARTERLY RESULTS FOR THE PERIOD ENDED ON

30TH SEPTEMBER, 2022

_		,		
SI. No.	PARTICULARS	30th September, 2022	Corresponding 3 months ended in the previous 30th September, 2021	
1.	Total Income from Operations	-1.77	0.55	823.67
2.	Net Profit / (Loss) for the period			
П	(before Tax, Exceptional and/or			
П	Extraordinary items#)	-5.64	-4.61	6.38
3.	Net Profit / (Loss) for the period			
Ш	before tax (after Exceptional and/or			
Ш	Extraordinary items#)	-5.64	-4.61	6.38
4.	Net Profit / (Loss) for the period			
Ш	after tax (after Exceptional and/or			
Ш	Extraordinary items#)	-5.64	-4.61	5.23
5.	Total Comprehensive Income for the			
П	period [Comprising Profit / (Loss) for			
Ш	the period (after tax) and Other			
Ш	Comprehensive Income (after tax)]	-5.64	-4.61	5.23
6.	Equity Share Capital	725.28	725.28	725.28
7.	Reserves (excluding Revaluation			
Ш	Reserve)	5.39	-	14.89
8.	Earnings Per ShareofRs 10/-each			
П	(for continuing and discontinued			
	operations)-			
	1. Basic:	0.00	0.00	0.007
H	2. Diluted:	0.00	0.00	0.007

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formatof the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity.

For RICH UNIVERSE NETWORK LIMITED SHASHWAT AGARWAL

Place: Kanpur Date: 11.11.2022

DIN: (00122799)

All amts. In Lakhs

अचल सपात्तया के विक्रयार्थ इ-नालामा हुतु सावजानक सूचना

ं इंदिया इन्फोलाइन हार्स्सिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिजात) (आईआईएफएल-एचएफएल) निगमित कार्यालयः भरवण्ड सं. १८ उद्दोग विहार फेज-IV गुडगांव-122015 (हरियाणा) तथा शार कार्यालयः 30/30ई, ऊपरी भूतल, मुख्य शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ मार्ग, जगुआर शोरूम के समीप, मोती नगर, नई दिल्ली के पास बंधककृत अचल सम्पत्ति का विक्रय। जबकि आईआईएफएल–एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी (''एओ'') ने, आईआईएफएल–एचएफएल की देयराषियों की वसूली हेतु, निम्नलिखित सम्पत्ति / यों का "'जैसी हैं जहां हैं आधार एवं जैसी हैं ज हैं आधार'' पर विक्रय करने के एकाधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खातों /प्रोस्पेक्ट नंबरों के तहत अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना के अनुपालन में उनका अधिग्रहण क लिया था। विक्रय जो है, वह अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइटः www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई–नीलामी मंच के माध्यम से किया जाएगा।

2. श्रीमती गायत्री अ	17 सितंबर 2021 रु. 18,44,308/- (रुपये प्रदृठारह लाख चौवालिस जार तीन सौ आठ मात्र)	संपत्ति के समस्त वह माग तथा अंश जो पलैट सं. ई—200 के रूप में हैं जिनका अधिमापन 55 वर्ग गज है, जो द्वितीय तल, मनसा राम पार्क, ब्लॉक—ई, उत्तम नगर, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली, भारत, पिनकोड—110059 में स्थित हैं	17 अक्टूबर 2022 तिथि 02 नवंबर 2022 के अनुसार कुल बकाया	रु. 16,82,700 / — (रुपये सोलह लाख बयासी हजार सात सौ मात्र)	07 दिसं. 2022 11.00 — 14.00 बजे संपर्क : श्री जय कुमार 9910999001
3. श्रीकांत सिंह	one and an one may	पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली, भारत,	कुल बकाया		9910999001
IL10049872 एवं IL10077068)	बोली वृद्धि राशि	ायनकारू—११०००५ म १४४त ह	रु. 17,61,476/- (रुपये सन्नह लाख इकसठ हजार चार सौ छिहत्तर मात्र)	धरोहर राशि जमा (धराज)	धराज अंतिम तिथि 09 दिसं. 2022 को 5 बजे तक
	रु. 25,000 / — (रुपये पच्चीस हजार मात्र)		tii lootiit filaj	रु. 1,68,270 /— (रुपये एक लाख अड़सठ हजार दो सौ सत्तर मात्र)	ई—नीलामी की तिथि/समय 14 दिसं. 2022 11.00—13.00 बजे

से किए जाएंगे। खातों के विवरण इस प्रकार हैं: क) खाता का नाम:- आईआईएफएल होम फाइनेंस लि., ख) बैंक का नाम - स्टैंडर्ड चार्टड बैंक लि., ग) खाता सं: :-9902879, उसके बाद लोन नंबर, घ) आईएफएससी कोड: SCBL0036001, ड.) बैंक पता : स्टैंडर्ड चार्टड बैंक, 90 एम.जी. मार्ग, फोर्ट, मुंबई-40001

- ।. ई—नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि वे अपने विवरणों को पर्याप्त समय पूर्व सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://www.bankeauctions.com के पंजीकृत कर लें और उन्हें इस हेत् लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी व पासवर्ड सुजित करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपने "निविदा प्रपत्र", धराज के भुगतान विवरणों, केवाईसी एवं पैन कार्ड की प्रतियों के साथ ऊपर वर्णित शाखा कार्यालय में प्रस्तुत/प्रेषित करने होंगे।
- बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव को, स्तंभ ''बोली वृद्धि राषि'' के अंतर्गत अंकित राषि के गुणक में बढ़ाना होगा। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनटों में बोलीदान किया जाता तो समापन समय 5 मिनटों के लिए स्वतः ही बढ जाएगा। सफल बोलीदाता को बोली राषि की 25 प्रतिषत राषि (धराज का समायोजन करने के उपरान्त) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी तथा बोली राषि की
- शेष 75 प्रतिषत रकम प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय की अभिपृष्टि किए जाने की तिथि से 15 दिवसों के अंदर जमा करनी होगी। समस्त जमाएं तथा भगतान जो हैं, वो भगतान के निर्धारित . क्रेता को सम्पत्ति से संबंधित समस्त करों एवं दरों लागतों सहित उपकर, लागू स्टांप शुल्क, शुल्कों एवं किसी अन्य संवैधानिक देयराषि अथवा अन्य देयताओं जैसे नगर निगम कर, विद्यु
- प्रभारों, भूमि एवं समस्त अन्य आकरिमक लागतों, प्रभारों का भूगतान वहन करना होगा। बोलीदाताओं को सलाह है कि वे ई-नीलामी विक्रय कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अपनी बोलियां जमा करने से पहले नीलामी विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों तथा नीलामी आवेदन प्रपट्ट
- हेतु वेबसाइट https://bankeauctions.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देख लें। विवरणों. सहायता प्रक्रिया तथा ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रिषक्षण के लिए प्रस्तावित बोलीदातागण जो हैं. वे सेवा प्रदाता से ई-मेल आईडी support@bankeauctions.com. सहायता हेल्पलाइ नंबर्स: /7291981124/25/26 पर संपर्क कर सकते हैं तथा किसी सम्पत्ति से संबंधित पूछताछ के लिए श्री जीतेंद्र गुप्ता से /9999682823ए ई-मेल: jitendra.gupta1@iifl.com से संपर्क
- एतद्द्वारा उपरोक्त ऋणकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे उन घरेलू वस्तुओं को 7 दिवसों के अंदर एकत्र कर लें, जो भौतिक आधिपत्य लिए जाने के समय पर प्रतिभूत पिरसम्पित्त स्थल पर पड़ी हुई होंगी, अन्यथा आईआईएफएल-एचएफएल किसी भी परिस्थिति में सम्पत्ति की किसी हानि हेत् उत्तरदायी नहीं होगी। आगे ऋणकर्ता /ओं को एतदद्वारा सचित किया जाता है कि यदि वे उपरोक्त कथित वस्तओं को एकत्र करने में विफल रहते हैं. तो वस्तओं को विधि—व्यवस्था के अनसार बेच दिया जाएगा
- . उपरोक्त अनुबंधित समय के अंदर सफल बोलीदाता / नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी चरण में भुगतान में चूक किए जाने की स्थिति में, विक्रय निरस्त कर दिया जाएगा तथा पहले चूकता की गई राशि (घराज सहित) को जब्त कर लिया जाएगा तथा सम्पत्ति को फिर से बेचने के लिए रख दिया जाएगा। 10. एओ के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे बिना कोई कारण बताए ही निविदा / नीलामी के नियमों एवं शर्तों को स्थगित / निरस्त कर सकते हैं अथवा उन्हें बदल सकते हैं। निविदा / नीलामी
- में किसी विवाद की स्थिति में आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा। सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 30 दिवसीय सांविधिक विक्रय सूचना

ऋणकर्ता को एतदद्वारा अधिसचित किया जाता है कि वे निविदा / नीलामी की तिथि से पूर्व ऊपर अंकितानसार राषि का अद्यतनीकत ब्याज एवं आनुषंगिक व्ययों के साथ भगतान कर दें। भगतान करने में विफर रहने पर. सम्पत्ति की नीलामी की जाएगी ∕ उसे बेच दिया जाएगा तथा शेष देयराषियों, यदि कोई निकलती हों, की वसूली ब्याज एवं लागत के साथ की जाएगी। ान : नर्ड दिल्ली, दिनांक : 11.11.202 स्ता./— प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिर

न्यू ऐरा लिजिंग एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 23, मोतिया खान, रानी झाँसी रोड, नई दिल्ली- 110055 ई–मेल: neweraleasingfinance@gmail.com, CIN: L67120DL1984PLC018800, द्रमाष: : 011-68888824

	30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित उद्वरित वत्तीय परिणाम (Rs. In Lakhs) क. विवरण समाप्त तिमाही समाप्त वार्षिक										
큙.	विवरण		समाप्त तिमाही								
सं०		30.06.2022 (अनअंकेक्षित)	31.03.2022 (अंकेक्षित)	30.06.2021 (अनअंकेक्षित)	31.03.2022 (अंकेक्षित)						
1	संचालन से कुल आय	1.29	13.72	1.60	18.51						
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(0.36)	3.52	0.95	0.09						
3	कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(0.36)	3.52	0.95	0.09						
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(0.36)	3.52	0.95	0.09						
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाम/ (हानि) शामिल (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	(0.36)	3.52	0.95	0.09						
6	चुकता इक्वीटी शेयर पूँजी (सममूल्य रू० 10/- प्रति शेयर्स)	400.00	400.00	400.00	400.00						
7	रिजर्व (रीवैलुवेसन रिजर्व को छोड़कर जैसा कि वर्ष 2021-2022 के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया	-	-	-	(43.42)						
8	प्रति शेयर आय (सममूल्य रू० 10/- प्रति शेयर्स) संचालन ज	। री एवं बंद करने के	लिए								
	मूल::	(0.0091)	0.0879	0.0237	0.0022						
	तरल:	(0.0091)	0.0879	0.0237	0.0022						

- कम्पनी केवल एक व्यावसायिक गतिविधि करती है इसलिए आईएनडी के तहत खण्ड रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।
- 2. उपरोक्त परिणाम लेखापरीक्षक सतिमति द्वारा समीक्षा कर एवं निदेशक मंडल द्वारा उनके सम्बन्धित 10 नवम्बर, 2022 को सम्पन्न बैठक
- 3. पिछली अवधि के आकड़े वर्तमान अवधि के आकड़े की पुष्टि के लिए जहाँ भी आवश्यक थे। पुर्नगठित/पुनः वर्गीकृत किए गये हैं।
- 4. कम्पनी पर इण्डियन एकाऊटिंग स्टेन्डर्ड 1 अप्रैल, 2019 से लागू है।

मंडल की ओर से कृते न्न्यू ऐरा लिजिंग एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड हस्ता०/-रोहताश शर्मा (निर्दे शक)

DIN: 06804507

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 11.11.2022

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

एवन मर्केटाइल लिमिटेड

पंजी. कार्या.: ऊपरी बेसमेंट, स्मार्ट भारत मॉल, भूखंड सं. आई-2, सेक्टर-25ए, नोएडा (उत्तर प्रदेश-201301), दूरभाष : 0120-3355131 सीआईएन : एल17118यूपी1985पीएलसी026582

30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के

एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

						(रु. लाख में)
विवरण	30.09.2022 को समाप्त 3 माह	30.06.2022 को समाप्त पूर्ववर्ती 3 माह	तद्नुरूपी 3	30.09.2022 को समाप्त पूर्ववर्ती अवधि के वर्ष—प्रतिवर्ष	के वर्ष-प्रतिवर्ष	31.03.2022 को समाप्त व
	(-) 00)	() 00)	माह	के आंकड़े	के आंकड़े	() 00)
	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
परिचालनों से कुल आय	162.63	155.07	159.4	317.7	308.57	624.83
अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि), (कर, आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व #)	-24.81	-16.51	-12.89	-41.32	-15.84	-188.83
कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत #)	-24.81	-16.51	-12.89	-41.32	-15.84	-188.83
कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि)	-24.81	-16.51	-12.89	-41.32	-15.84	-189.19
(आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के		-10.51	-12,03	-41.56	-13.04	-103,13
उपरांत #) अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट]		-16.51	-12.89	-41.32	-15.84	-189.19
समता अंश पूंजी	74774	74774	74774	74744		74774
आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर), पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन–पत्र में निदर्शितानुसार आय प्रति अंश (रु. 10/– प्रत्येक का) (परिचालनरत् एवं बंद परिचालनों हेतु)	-	-	-	/#	II-	-
1. मूल : 2. तरलीकृत :	(0.33) (0.33)	(0.22) (0.22)	(0.17) (0.17)	(0.55) (0.55)	0.21 0.21	(2.53) (2.53)

. उपर्युक्त लेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणामों की, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत अपेक्षितानुसार लेखापरीक्षक समिति द्वारा समीक्षा की गयी, 11 नवंबर 2022 को आयोजित निदेशक मंडल की अपनी बैठक में इनका अनुमोदन व अभिलेखन किया गया तथा लेखापरीक्षक द्वारा इनका सीमित समीक्षागत प्रतिवेदन दिया गया।

2. उपरोक्त विवरण, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध त्रैमासिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों अर्थात् (www.bseindia.com, www.cse-india.com) और कंपनी की वेबसाइट अर्थात (www.avonmercantile.in) पर उपलब्ध हैं। कृते एवन मर्केंटाइल लिमिटेड

हस्ता./— (दिशा सोनी) कंपनी सचिव

एसीएस : 42944



R R Financial Consultants Limited CIN: L74899DL1986PLC023530

Regd Off:- 412-422, 4th Floor, Indraprakash Building, 21 Barakambha Road, New Delhi-110001 Phone:- 011-23354802 Email id:-cs@rrfcl.com Website:- www.rrfcl.com

Extract of Consolidated Un-audited Financial Results for the 2nd Quarter/ Half Year ended on 30th September, 2022 (₹ in lakhs)

	Consolidated							
Particulars	8	Quarter ende	d	Half Y	Year ended			
	30.09.2022 (Unaudited)	30.06.2022 (UnAudited)	5 5 5 5 5 1 T T T T T T T T T T T T T T	30.09.2022 Unaudited	30.09.2021 Unaudited	31.03.2022 (Audited)		
otal income from operations (net)	461.23	506.28	361.65	967.51	748.19	1456.89		
et Profit / (Loss) for the period before Tax exceptional and/or Extraordinary items)	27.86	48.50	11.98	76.36	52.18	53.27		
et Profit / (Loss) for the period before tax after Exceptional and/or Extraordinary items)	27.86	48.50	11.98	76.36	52.18	53.27		
et Profit / (Loss) for the period after tax (after xceptional and/or Extraordinary items)	26.08	42.50	11.98	68.58	47.18	46.90		
otal Comprehensive Income for the period comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) nd Other Comprehensive Income (after tax)]	21.14	41.00	12.14	62.14	51.01	41.96		
quity Share Capital	1,106.94	1,106.94	1,106.94	1,106.94	1,106.94	1,106.94		
eserves (excluding Revaluation Reserve) as hown in the unaudited Balance Sheet of the revious year	8*	(5)		8*		3,461.80		
arnings Per Share (face value of ₹ 10/- each) or continuing and discontinued operations) asic lluted	0.19 0.19	0.37 0.37	0.11 0.11	0.56 0.56	0.46 0.46	0.38 0.38		

Key Standalone Un-audited Financial information for the 2nd Quarter/ Half Year ended on 30th September, 2022.

		Standalone									
Particulars		Half Y	Year ended								
		30.06.2022 (UnAudited)	1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	The second secon	****	31.03.2022 (Audited)					
Total income from operations (net)	17.38	19.74	15.18	36.88	43.21	78.05					
Profit before tax	0.76	0.65	0.49	1,17	1.32	2.31					
Profit after tax	0.46	0.55	0.49	0.77	1.32	0.17					

sh

- The above is an extract of the detailed format of 2nd Quarter/ Half year ended Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of standalone/ consolidated financial results along with notes are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on Company's website www.rrfcl.com.
- The above results has been prepared in compliance with recognition and measurement principles of companies (Indian accounting standards) rules, 2015 (IND AS), as amended by the companies (Indian accounting standards) (Amended rules), 2016 prescribed under section 133 of company act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the
- The above results were reviewed and recommended by Audit Committee and approved by Board of Directors at its meeting
- Previous period figures have been reclassified/ regrouped wherever considered necessary to conform to the current figures. For and on behalf of the Board of R R Financial Consultants Limited

Place: New Delhi Date: 11th September, 2022

Rajat Prasad Managing Director DIN: 00062612

(रा त्याख में)

ईस्ट बिल्डटेक लिमिटेड सीआईएन: L74999DL1984PLC018610

पंजीकृत कार्यालयः डी–3/2, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फंज–11, नई दिल्ली–110020 दूरभाषः 011-47105100, ईमेलः contact@ebl.co.in, वेबसाइट www.ebl.co.in

30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (छ. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही हेतु			समाप्त छमाही हेतु		समाप्त वर्ष हेतु	
V 1.		30.09.2022	30.06.2022	30 09 2021	30.09.2022	30.09.2021	31 03 2022	
		(अलेखापरीकि)	(अलेखापरीवित)	(अलेखापरीकित)	(अलेखापरीवित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	
1	प्रचालनों से कुल आय (निवल)	6.41	9.22	5.55	15.63	21.01	59.76	
2	आपवादिक एवं कर पूर्व लाम/(हानि)	(5.14)	(1.46)	(4.69)	(6.60)	(3.05)	3.00	
3	कर पश्चात् अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक मदों के उपरांत)	(3.83)	(1.10)	(3.47)	(4.93)	(2.27)	1.70	
4	कुल व्यापक आय	(3.83)	(1.10)	(3.47)	(4.93)	(2.28)	1.71	
5	समता अंश पूंजी	190.76	190.76	190.76	190.76	190.76	190.76	
6	आय प्रति अंश (ईपीएस) (असाधारण मदों के उपरांत) (फ. 10/- प्रत्येक का) (अवार्षिकीकृत) क) मूल ख) तरलीकृत	(0.20) (0.20)	(0.06) (0.06)	(0.18) (0.18)	(0.26) (0.26)	(0.12) (0.12)	0.09	

1. दिनांक 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के खंडवार राजस्व, परिणामों और नियोजित पूंजी का विवरण

क्र. -	विवरण	स	नमाप्त तिमाही	हेतु	समाप्त छमाही हेतु		समाप्त वर्ष हेतु
सं.		30 09 2022	30.06.2022	30 09 2021	30 09 2022	30.09.2021	31.03.2022
		(अलेखापरीवि)	(अलेखापरीकित)	(अलेखापरीकित)	(अलेखापरीकित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीखित)
1.	खण्डवार राजस्व (क) खण्डवार-ए (रियल एस्टेट/कंस्ट्र) (ख) खण्डवार-बी (परामर्शन)	3.63 2.78	3.63 5.38	3.65 1.90	7.26 8.16	7.28 13.73	14.56 15.15 30.05
	(ग) खण्डवार—सी (व्यापार) (घ) अनाबंटित	2.10	0.20	1.50	0.20	13.73	30.00
	कुल	6.41	9.22	5.55	15.63	21.01	59.76
2.	घटाः 1) प्रत्येक खण्डवार से कर एवं व्याज प्राप्ति से पहले परिचालन खण्डवार परिणाम (लाभ (+)/हानि(-) से प्राप्त अंतर खण्डवार राजस्य निवल बिक्री/आय	6.41	9.22	5.55	15.63	21.01	59.76
	क) खण्डवार-ए (रियल एस्टेट/कंस्ट्र.) (ख) खण्डवार-वी (परामर्शन)	(0.77)	(0.53)	(0.76)	(1.30)	(1.01)	(2.26 15.10
	(ग) खण्डवार-सी (व्यापार) (घ) अनाबंदित	(2.31)	1.99 (1.07)	0.05 (2.57)	1.99 (3.38)	4.73 (4.07)	5.79
	कुल	(3.07)	0.39	(3.28)	(2.68)	(0.35)	8.7
	घटा: 1) ब्याज 2) अन्य अनाबंटित ब्यय निवल नेट ऑफ	2.07	1.85	1.41	3.92	2.70	5.7
	3) अनाबंटित आय		1	1		:	
	कर पूर्व कुल लाम	(5.14)	(1.46)	(4.69)	(6.60)	(3.05)	3.0
3.	नियोजित पूजी (खण्डवार परिसंपत्तिया—खण्डवार दाकित्य) क) खण्डवार—ए (रियल एस्टेट / कंस्ट्र.) (ख) खण्डवार—बी (परामर्शन) (ग) खण्डवार—सी (व्यापार) (घ) अनाबंटित	662.94 0.76 (20.87) (11.44)	662.43 (1.97) (12.58) (12.65)	663.66 0.99 (6.97) (25.36)	662.94 0.76 (20.87) (11.44)	663.66 0.99 (6.97) (25.36)	663.16 16.09 (0.32 (42.61
\neg	कल	631.39	635.23	632.32	631.39	632.32	636.32

- र उपरोक्त लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षक समिति द्वारा समीक्षा कर दी गई है तथा परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा 11,11,2022 क आयोजित की गई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया गया है। इनकी समीक्षा संवैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिन्होंने खण्डवार परिणा
- के उपरांत उस पर एक अस्पष्ट राय प्रकट की है। सेबी के विनियम 33 के अंतर्गत अपेक्षितानुसार सीमित समीक्षा, संवैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा पूर्ण कर दी गई है।

पूर्ववर्ती वर्ष / अवधि के आंकड़ों को, जहां कहीं अभी अनिवार्य समझा गया है, पुनर्समृहित / पुनर्य्यवरिधत किया गया है।

. इन वित्तीय परिणामों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 (संशोधितानुसार के अनुसार तैयार किया गया है। कंपनी के संवैधानिक लेखापरीक्षकों ने सेबी (सुधीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015

के विनियम 33 के निबंधनों के अंतर्गत परिणामों की सीमित समीक्षा की है।

कृते ईस्ट बिल्डटेक लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 11.11.2022

घुसूदन चोखानी (प्रबंध निदेशक) (डीआईएन: 00307234

न्यू ऐरा लिजिंग एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: 23, मोतिया खान, रानी झाँसी रोड, नई दिल्ली- 110055 ई-मेल: neweraleasingfinance@gmail.com, CIN: L67120DL1984PLC018800, दूरभाष: 011-69999350 30 सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही एवं अर्धवार्षिक के अनअंकेक्षित उद्वरित एकीकृत वित्तीय परिणाम

	५० सितन्बर, २०२२ का समान्त तिमाहा एवं अथवाव	। क्या क्या क्या का का का विकास ा	तत उद्घारत एक	ાજુલ ાવલાય પ	गरणान		(रू० लाखों में)
क्र. सं०	विवरण		समाप्त तिमाह (अनअंकेक्षित	· I	समाप्त ३ (अनअं	समाप्त वार्षिक (अंकेक्षित)	
		30-09-2022	30-06-2022	30-09-2021	30-09-2022	30-09-2021	31-03-2022
1	संचालन से कुल आय	1.32	1.29	1.45	2.62	3.05	18.51
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(0.54)	(0.36)	(0.62)	(0.90)	0.33	0.09
3	कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(0.54)	(0.36)	(0.62)	(0.90)	0.33	0.09
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(0.54)	(0.36)	(0.62)	(0.90)	0.33	0.09
5	अविध के लिए कुल व्यापक आय (अविध के लिए लाभ/ (हानि) शामिल (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)) (संदर्भ नोट 2)	(0.54)	(0.36)	(0.62)	(0.90)	0.33	0.09
6	चुकता इक्वीटी शेयर पूँजी (सममूल्य रू० 10/- प्रति शेयर्स)	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
7	रिजर्व (रीवैलुवेसन रिजर्व को छोड़कर जैसा कि पिछले वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया	-	- 1	- 1	-	-	(43.42)
8	प्रति शेयर आय (सममूल्य रू० 10/- प्रति शेयर्स) संचालन जारी एवं बंद करने के लिए			510	7 123		2)
	मूल::	(0.0135)	(0.0091)	(0.0155)	(0.0226)	0.0082	0.0022
	तरल:	(0.0135)	(0.0091)	(0.0155)	(0.0226)	0.0082	0.0022

- 1. सेबी (सूची ओब्लीगेसन एण्ड प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अर्न्तगत 30 सितम्बर, 2022 को उपरोक्त समाप्त तिमाही एवं अर्धवार्षिक के उद्धरित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विस्तारित प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्ज में दाखिल किया गया।
- 2. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षक सतिमति द्वारा समीक्षा कर एवं निदेशक मंडल द्वारा उनके 10 नवम्बर, 2022 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित किये गये। 3. पिछली तिमाही/वार्षिक अवधि के आकड़े जहाँ भी आवश्यक थे, पुर्नगठित/पुनः वर्गीकृत किए गये हैं।
- 4. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा की गई। 5. कम्पनी के उत्पादों के लिए केवल एक खण्ड है।

बोर्ड की ओर से

कृते न्यू ऐरा लिजिंग एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड हस्ता०/-

रोहताश शर्मा (निर्देशक) DIN: 06804507

स्थान: नई दिल्ली तिथि: 11.11.2022

www.readwhere.com

स्थान : नोएडा

दिनांक : 11.11.2022

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

हसमुखी, ग्राम प्रधान

NEW ERA LEASING AND FINANCE LIMITED

Regd. Office: 23, Motia Khan, Rani Jhansi Road, New Delhi- 110055 **CIN:** L67120DL1984PLC018800; **Tel No.:** 011-69999350;

Email ID: neweraleasingfinance@gmail.com; Website: www.neweraleasingfinance.com

Date: 12th November, 2022

To,
The Executive Director,
The Calcutta Stock Exchange Limited,
7, Lyons Range, Dalhousie,
Kolkata- 700 001, West Bengal
(Scrip Code: 24303)

(Scrip Code: 24303) ISIN: INE616Q01011

Subject: Newspaper Clippings of the Un-Audited Financial Results for the Quarter

and half-year ended on 30th September, 2022

Dear Sir(s),

With reference to the captioned subject, we enclose herewith the newspaper clippings of the Un-Audited financial results pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for the quarter and half-year ended on 30th September, 2022 published by the Company in the newspapers named as "Financial Express" (English language) and "Jansatta" (Hindi language) dated 12th November, 2022.

This is for your information and records.

Thanking you,

For New Era Leasing and Finance Limited

Rohtash Sharma

(Director)

DIN:-06804507

Office Address: 23, Motia Khan, Rani

Jhansi Road, New Delhi- 110055

Encl: As mentioned above

FINANCIAL EXPRESS

NORTHERN RAILWAY CORRIGENDUM

Ref: Tender Notice No. 58/2022-2023 dated: 02.11.2022 S.No. 07 T.No. 77226001 due on 30.11.2022 In reference to above tender, the item description, certain conditions and

documents have been modified, deleted and added. All other terms and conditions remain unchanged. The corrigendum has been published on website www.ireps.gov.in. 3016/22

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

JAGSONPAL FINANCE & LEASING LTD.

CIN: L65929DL1991PLC043182

Regd. Office: D-28, First Floor, Greater Kailash Enclave - I, New Delhi - 110 048. Tel: 011-49025758, Fax: 011-41633812, Web: www.jagsonpal.co.in, Email: jagsonpalfinance@gmail.com Extract of the Standalone Statement Unaudited Financial Results of Quarter and Half year ended 30.09.2022 (Rs. in Lacs) Quarter | Half year Quarter **PARTICULARS** ended ended 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2021 2.58 Total income from operations (net) Net Profit/(Loss) for the period before tax and exception items (1.85)(6.16)0.62 Net Profit/(Loss) for the period after tax (before exception items) (1.85)(6.16)0.62 Net Profit / (Loss) for the period after tax, exceptional items (1.85)(6.16)0.62 (1.85)0.62 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (6.16)(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income **Equity Share Capital** 550.04 550.04 550.04 Reserves excluding revaluation reserves (i.e Other Equity)

The above is an extract of the detailed format of Quarter/Half year Results filed with the Stock Exchange. under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulation 2015. The Full forma of the Financial Results for the Quarter and half year ended on 30.09.2022 are available on the Stock Exchange i.e. bseindia.com and on the company's website www.jagsonpal.co.in.

By Order of the Board Kanwarpal Singh Kochhar Place: New Delhi Chairman & Managing Director Date: November 11, 2022 DIN: 00529230



NIMBUS PROJECTS LIMITED

Regd. Office: 1001-1006, 10th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 Phone: 011-42878900, Email: nimbusindialtd@gmail.com, Website: www.nimbusprojectsltd.com CIN: L74899DL1993PLC055470

Extract of Standalone & Consolidated Un-audited Financial Results for the Quarter & Half Year Ended 30th September, 2022 (* In Lakhs) STANDALONE CONSOLIDATED **PARTICULARS** Quarter ended Quarter ended Quarter ended Half Year Half Year Year Ended Quarter ended Quarter ended Quarter ended Half Year Half Year Year 30.09.2021 30.09.2022 ended 30.09.2022 30.06.2022 ended ended 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2021 ended ended 30.09.2021 (Un-audited) (Un-audited) (Un-audited) 30.09.2022 30.09.2021 (Audited) (Un-audited) (Un-audited) (Un-audited) 30.09.2022 31.03.2022 (Un-audited) Un-audited) (Un-audited) (Un-audited) (Audited) 23.95 23.85 24.65 47.80 51.40 386.21 23.95 23.85 24.65 47.80 51.40 386.21 Total Income from operations (net) Net Profit/(Loss) for the period (165.67)2247.22 (-)233.172081.55 (-)549.65905.81 (325.81)2607.90 (-)246.082282.09 (-)575.291460.60 (before Tax and after Exceptional Net Profit / (Loss) for the period (165.79)2247.09 (-)229.472081.30 (-)543.84868.12 (325.93)2607.77 (-)242.382281.84 (-)569.481422.91 after tax (after Exceptional items) Total Comprehensive Income for 2247.40 2081.99 (-)543.84868.76 (-)242.772283.73 (-)569.391424.70 (164.59)(-)229.86(325.15)2609.70 the period (Comprising profit /(Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital 1083.80 1083.80 1083.80 1083.80 1083.80 1083.80 1083.80 1083.80 1083.80 1083.80 1083.80 1083.80 (-)4862.26Reserves (excluding Revaluation -)4862.20Reserve as shown in the Balance (As on (As on Sheet of previous year) 31.03.2022) 31.03.2022 Earnings Per Share (Face Value Rs. 10/- each) 20.73 19.20 13.87 Basic: ₹ (1.53)(-)1.93(-)5.618.46 (3.01)24.06 (-)2.0421.05 (-)5.88Diluted:₹ 20.73 19.20 (1.53)(-)1.93(-)5.618.46 (3.01)24.06 (-)2.0421.05 (-)5.8813.87

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 The full format of the Quarterly & Half Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange website, www.bseindia.com and on the Company's website, www.nimbusprojectsltd.com On behalf of the Board

For Nimbus Projects Limited Sd/-

BIPIN AGARWAL (Managing Director) DIN: 00001276



Earning Per Share (face value Rs. 10/- each) Basic & Diluted

Notes:

RAJNAGAR BRANCH, Ghaziabad

Date: 11th November, 2022

Place: New Delhi

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (SARFAESI ACT)

0.01

In respect of loans availed by below mentioned borrowers / guarantors through BANK OF BARODA, which have become NPA with below mentioned balance outstanding on dates mentioned below. We have already issued detailed Demand Notice dated as mentioned below Under Sec. 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 by Registered Post / Speed Post / Courier with acknowledge due to you which has been returned undelivered / acknowledgment not received. We have indicated our intention of taking possession of securities owned on one of you as per Sec. 13(4) of the Act in case of your failure to pay the amount mentioned below within 60 days. In the event of your not discharging liability as set out herein above the Bank / Secured Creditor may exercise any of the right conferred vide section 13(4) of SARFAESI Act and while publishing the possession notice / auction notice, electronically or otherwise, as required under the SARFAESI Act, the Bank / Secured Creditor may also publish your photograph. Details are hereunder:-

Name of Borrowers/Guarantors/ Date of NPA	Amount Outstanding	Details of Secured Assets:
Mrs. Pooja W/o Mr. Neeraj Gupta, Mr. Neeraj Gupta S/o Shri Ram kumar Gupta Address 1: 894 Vivekananda Nagar-3, Ghaziabad-201002, Address 2: Flat No 301 Pandav Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201002, Address 3: House No 1513 Ground Floor, Sector-4 Vivekananda Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201002 Guarantor: Mr. Ram Kumar Gupta S/o Shri Bal Mukund Gupta Address 1: House No- 894 Vivekanand Nagar, Ghazaiabad, Uttar Pradesh-201001 Address 2: House No- 301 Vivekanand Nagar, Ghazaiabad, Uttar Pradesh-201002. Loan Accounts have been classified as a NPA on 08-06-2022	(Inclusive of Interest upto 08-06-2022)	1513, Ground Floor

The above mentioned Borrowers / Guarantors are advised (1) To collect the original notice from the undersigned for more and complete details and (2) To pay the balance outstanding amount interest and costs etc. within 60 days from the date of notice referred to above to avoid further action under the SARFAESI Act.

Dated: 11-11-2022, Place: Ghaziabad Authorised Officer, BANK OF BARODA

NEW ERA LEASING AND FINANCE LIMITED Regd. Office: 23. Motia Khan, Rani Jhansi Road, New Delhi- 110055

CIN: L67120DL1984PLC018800, E-mail: neweraleasingfinance@gmail.com; Ph: 011-699999350

Extract of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter and Half-Year ended 30th September, 2022

SI. No.	Particulars		Quarter ende (Unaudited		Half Year Ended (Unaudited)		Year ended (Audited)	
		30-09-2022	30-06-2022	30-09-2021	30-09-2022	30-09-2021	31-03-2022	
1	Total income from operations	1.32	1.29	1.45	2.62	3.05	18.51	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.54)	(0.36)	(0.62)	(0.90)	0.33	0.09	
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.54)	(0.36)	(0.62)	(0.90)	0.33	0.09	
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.54)	(0.36)	(0.62)	(0.90)	0.33	0.09	
5 19	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] (Refer Note No. 2)	(0.54)	(0.36)	(0.62)	(0.90)	0.33	0.09	
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/-)	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	(43.42)	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations):	the state of				15		
	Basic:	(0.0135)	(0.0091)	(0.0155)	(0.0226)	0.0082	0.0022	
1	Diluted:	(0.0135)	(0.0091)	(0.0155)	(0.0226)	0.0082	0.0022	

Place: New Delhi

Date: 11th November, 2022

- 1. The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results for the guarter and half year ended 30th September, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- 2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the company in its meeting held on 10th November 2022. 3. Figures for the previous quarter/year have been re-grouped/re-arranged, wherever necessary
- Limited review of the above results has been carried out by the Auditors.
- 5. There is only one segment for the products of the company.

On Behalf of the Board For New Era Leasing and Finance Limited

Half Year

Year

Rohtash Sharma

(Director) DIN: 06804507

HIM TEKNOFORGE LIMITED CIN: L29130HP1971PLC000904

Registered Office: Vill Billanwali, Baddi – 173205, Distt: Solan (H.P) Ph. No. +91(1795)654026 Email: cs@gagl.net

Quarter

Fax No.:+91(1795)245467 Website: www.gagl.net

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30.09.2022 (Rs. in Lacs) Except EPS

Quarter

S. No.	Particulars	ended on 30.09.2022 (Unaudited)	ended on 30.06.2022 (Unaudited)	ended on 30.09.2021 (Unaudited)	ended on 30.09.2022 (Unaudited)	ended on 30.09.2021 (Unaudited)	ended on 31.03.2022 (Audited)
1.	Total income from operations (net)	11554.43	10150.48	9946.90	21704.91	18402.20	35761.67
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	482.20	374.58	473.38	856.78	850.03	1229.64
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	389.52	374.58	473.38	764.10	850.03	1229.64
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	277.74	248.77	311.12	526.51	603.50	883.07
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprehensive Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	282.10	252.75	320.15	534.85	621.94	900.43
6.	Paid up Equity Share Capital (face value of Rs. 2/- per equity share)	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32
7.	Reserves excluding Revaluation Reserve (as per audited Balance Sheet as at 31st March)	-	-	-	-	-	16120.29
8.	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) -	0.400,000	123.000		90,41070	NUO DIANNO	
	Basic:	3.53	3.16	5255,000,000	6.69	7.67	11.23
	Diluted:	3.53	3.16	3.96	6.69	7.67	11.23

Notes:-

- The above unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on November 11th, 2022. These Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2022 are available on the Bombay Stock Exchange Website-www.bseindia.com and on the Company's Website-www.gagl.net.
- The company is engaged in a single business segment "Manufacturing of Auto Components"
- The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS), in pursuance to the provisions of section 133 of the Companies Act, 2013 and other accounting principles generally accepted in India.
- Corresponding figures of the previous quarter / period have been regrouped and reclassified to make the same comparable with the current period figures, wherever considered necessary.

For Him Teknoforge Limited Rajiv Aggarwal

Place: New Delhi

Regional Office: Delhi, Address : 3rd Floor, Plot No 21 & 21/1, Near Karol Bagh Metro Station, Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005 Ph- 011-45128661 E-mail: ro1008@sib.co.in Website: www.southindianbank.com

DELHI REGIONAL OFFICE

APPENDIX- II-A [See proviso to rule 6 (2)] Sale notice for sale of movable properties Auction Sale Notice for Sale of Movable Assets under the Securitisation and

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 6(2) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described movable property hypothecated to the South Indian Bank Ltd. Paschim Vihar Branch (Secured Creditor), the Physical Possession of which has been taken on 26/07/2022 by the Authorised Officer of The South Indian Bank Limited, Regional Office Delhi (Secured Officer), will be sold on "As is where is", "As is what is", and " Whatever there is" on 14/12/2022, for recovery of an amount of Rs. 8,87,82,356.87/- (Rupees Eight Crore Eighty Seven Lakhs Eighty Two Thousand Three Hundred And Fifty Six And Paisa Eighty Seven Only) as on 30/10/2022 due to The South Indian Bank Limited, Branch Vikaspuri, (Secured Creditor) from 1) Mr. Amit Gupta, Prop : M/s. AmarnathVishwanath, WZ/54, GF Village Khayala, New Delhi -110018 Also at : B-1/214, GF, Paschim Vihar, New Delhi 110 063 2) Mr.Vikas Agarwal, 323, Bhera Enclave, Paschim Vihar, New Delhi 110 087 3) Ms.Chhavi Agarwal, 323 Bhera Enclave, Paschim Vihar, New Delhi 110 087 4) Ms.Lathika Rani, B-1/214, GF. Paschim Vihar, New Delhi 110 063 5) Mr. Parveen Kumar Gupta, B-1/214, GF. Paschim Vihar, New Delhi 110 063. The reserve price will be Rs. 4,03,000.00 (Rupees Four Lakhs Three Thousand Only) and the Earnest Money Deposit will be Rs. 40,300.00 (Rupees Forty Thousand Three Hundred Only).

Round Pipes, MS Plates and Galvanised Plates in Lump Sump quantity For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in South Indian Bank Ltd. (Secured Creditor) website i.e. www.southindianbank.com Date: 10/11/2022 Sd/- AUTHORISED OFFICER

(THE SOUTH INDIAN BANK LTD.

Description of Security

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF

Ú.,	RELEVAN	IT PARTICULARS
1.	Name of Corporate Debtor	SHIPRA LEASING PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of Corporate Debtor	27/11/1989
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	RoC- Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor	U70109DL1989PTC038464
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor	Regd. Office: Flat No-502, 502-A, 5th Floor, 23 Barakhamba Road, NarainManzil, New Delhi -110001 Corporate Office: Plot No-9, Shipra Mall, Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad 201014 UP
6.	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	09.11.2022 (order received on 10.11.2022)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	09.05.2023 (180 days from the date of commencement of resolution process)
8.	Name and Registration number of the insolvency professional acting as Interim Resolution Professional	Roshan Lal Jain Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00966/2017-2018/11587 AFA Valid Upto: 24.01.2023
9.	Address & email of the interim resolution professional, as registered with the board	AN -46B, Shalimar Bagh, North West Delhi-110088 E-mail: roshanljain@yahoo.co.uk
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the Interim Resolution Professional	AN -46B, Shalimar Bagh, North West, Delhi-110088 E-mail: cirp.shipraleasing@gmail.com
11,	Last date for submission of claims	24.11.2022 (i.e., 14 days from appointment of Interim

Resolution Professional)

in a class (three names for each class) (a) Relevant forms available at (a) Web Link: https://lbbi.gov.in/home/downloads (b) Details of authorized representatives (b) Not Applicable are available at: Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Shipra Leasing Private Limited on 09.11.2022. The creditors of Shipra Leasing Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 24.11.2022 falling fourteen days from the appointment of the interim resolution professional to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

12. Classes of creditors, if any, under clause (b) of Not Applicable

Names of insolvency professionals identified Not Applicable

sub-section (6A) of section 21, ascertained by the Interim Resolution Professional

to act as authorised representative of creditors

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class [not applicable] in Form CA. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties Roshan Lal Jain Interim Resolution Professional for Shipra Leasing Private Limited

Date: 11.11.2022 Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00966/2017-2018/11587 Place: New Delhi

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations):

Can Fin Homes Ltd Sponsor: Canara Bank)

CAN FIN HOMES LTD. Office No. 101. First floor, Subhash Villa, Plot No. 643. Hiranmagri, Sector-13 Udaipur, Raiasthan PH: 0294-2485770, Email: udaipur@canfinhomes.com CIN: L85110KA1987PLC008699

The undersigned being the Authorised Officer of Can Fin Homes Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of the powers under the said Act and Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 01.08.2022 calling upon the borrowers Mr. Om Prakash Sharma & Mrs. Rajshree Sharma to repay the amount mentioned in the notice being Rs.23.36.889/- with further interest at contractual rates, till date of realization within 60 days from the date of the said notice.

POSSESSION NOTICE [Rule 8 (1)] [For Immovable Property]

nerein below in exercise of powers conferred under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the **08th day of** November, 2022. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and

the public in general that the undersigned has taken possession of the property described

respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of CFHL for ar

amount of Rs.23.36.889/- and interest thereon. **Description of immovable property** Plot No-27, Revenue village-Piparda, Ashapaura Nagar, Khata No-338/35, Tehsil & District-

Raisamand, Raiasthan, Boundaries: North by :- Road 30Ft East by :- Plot No-26 South by:- Plot No-21 West by:-Plot No-28

Date: 11.11.2022 **Place: Udaipur Authorized Officer, Can Fin Homes Ltd**

HARDWYN INDIA LIMITED Registered Office: B-101, PHASE-1, MAYAPURI, NEW DELHI-110064

Tel.011-28115352,28114972,28114643 CIN: L74990DL2017PLC324826 Email:info@hardwyn.com, Web: www.hardwyn.com

September

March

September

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER **ENDED SEPTEMBER 30, 2022**

SI. No	Particulars	30, 2022 (Unaudited)	31, 2022 (Audited)	30,2021 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	3,48,842.79	3,33,668.65	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	23,969.08	21,234.56	Company was listed on SME
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	16,145.09	23,969.08	Platform during the relevant period on
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	11,649.11	16,624.36	BSE. As per Listing norms/requ rements of
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	11,649.11	16,624.36	SME Platform , quarterly financial results was
6.	Equity Share Capital	1,52,996.97	10,2000.00	not required to be
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	51,44	58.00	reported. Hence the same was not prepared and
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic:	3.06	3.06	reported to BSE.

- a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- b) The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of
- c) # Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in

accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable. Dated: 12/11/2022

Rubaljeet Singh Sayal Place: New Delhi **Managing Director**

Regd off: D-251, GROUND FLOOR, DEFENCE COLONY, NEW DELHI- 110024,

CIN: L65923DL1984PLC248322"E-mail: durgeshmerchants@gmail.com; Website: www.durgeshmerchantsltd.com; Ph: 011-68888824 Extract of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter and Half-Year ended 30th September, 2022

DURGESH MERCHANTS LIMITED

2. Diluted:

(Rs. in Lakhs) SI. **Half Year Ended Particulars Quarter ended** Year ended (Unaudited) No. (Unaudited) (Audited) 30-09-2022 30-06-2022 30-09-2021 30-09-2022 30-09-2021 31-03-2022 Total income from operations 6.27 6.50 5.16 12.77 9.67 22.54 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 0.47 0.60 1.67 3.37 (0.51)1.11 0.47 0.60 1.67 3.37 Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary (0.51)1.11 Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary (0.38)0.82 0.35 0.44 1.24 2.41 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period 27.25 26.05 0.32 26.87 (10.56)(198.93)(after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] (Refer Note No. 2) Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/-) 280.25 280.25 280.25 280.25 280.25 280.25 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet

Diluted:

- The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Un-audited Financial Results are available on the Company's website (www.durgeshmerchantsltd.com).
- 2. The Company has adopted Indian Accounting Standard (""Ind AS"") from 1st April, 2016 and accordingly these financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Ind AS 34 ""Interim Financial Reporting"", prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

On Behalf of the Board For Durgesh Merchants Limited

0.04

0.04

0.09

0.09

DIN:07859817

DATED: 11.11.2022 financialexp.epap.in

PLACE: Chandigarh

Jt. MANAGING DIRECTOR (DIN No. 00094198)

Place: New Delhi

Date: 10th November, 2022

(0.01)0.03 (0.01)0.03

0.01 0.02

0.01

0.02

Rohit Ahuja (Managing Director)

New Delhi





वृत्त कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, कानपुर की निविदा सूचना पत्र सं0-2029 / एस.ई.-कानपुर / टी.क्य्-III / 01 दिनांक 11.11.2022 द्वारा सूतमिल आवासीय योजना इटावा में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 4 मंजिल फ्लैट्स के निर्माण कार्य हेतु ई निविदा (E Tender) के माध्यम से आमंत्रित की गयी है। इन निविदाओं से सम्बन्धित विस्तृत विवरण परिषद की वेबसाईट http://upavp.in एवं http://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती हैं। अधीक्षण अभियन्ता

कार्यालय ग्रा.पं.किशुरिहाई, वि.खं. ददरील, शाहजहांपुर

समस्त जीएसटी में पंजीकृत फर्मों को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत किशरिहार्ड. विकास खण्ड-ददरौल में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा की धनराशि से ग्राम पंचायत विकास योजना से स्वीकृत निम्नलिखित कार्य कराये जाने हैं। अतः इन कार्यों हेतु प्राक्कलन के अनुसार निमार्ण सामग्री की आपूर्ति हेतु दिनांक 15.11.2022 को सायं 05 बजे तक सीलबन्द निविदायें ग्राम पंचायत कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं। निविदाएं दिनांक 16.11.2022 को 11 बजे निविदादाताओं/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएंगी। किसी भी निविदा को

क्रम	कार्य का नाम	आवश्यक सामग्री	अभ्युक्ति
संख्या			मात्रा एवं सामग्री की
	ग्राम पंचायत किशुरिहाई विकास खण्ड ददरौल (शाहजहांपुर) में मन्दिर से लखपति के मकान तक निर्माण कार्य। अनुमानित लागत- 3.72 लाख		पूर्ण जानकारी ग्रा.पं. कार्यालय से सम्पर्क कर ली जा सकती है। जिसकी सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है।
हसमु	खी, ग्राम प्रधान	अनिल	कुमार सिंह, सचिव

CAREER INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND HOSPITAL I.I.M. Road, Ghailla, Lucknow- 226013 (U.P.)

E-mail- careermedical@careertrust.in Contact: 0522-2851181, 2851182 Requirement of faculty for MBBS, MD/ MS(UG&PG)

Anatomy-Prof 1, Assoc. Prof 1, A.P.2, Physiology- Prof.1, Assoc. Prof.1, A.P.2, Biochemistry- Prof 1, Assoc. Prof.1, A.P.2. Pharmacology- Prof 1, Assoc. Prof 1, A.P.2, Pathology- Prof.1 Assoc. Prof.3, A.P.4, Microbiology- Prof 1, Assoc. Prof.1, A.P.2, Forensic Medicine- Prof.1, Assoc. Prof.1, A.P.1, Comm. Medicine-Prof.1, Assoc. Prof.3, A.P.3, Gen. Medicine- Prof.1, Assoc. Prof.3. A.P.7, Respiratory Med.- Prof.1, Assoc. Prof.1, A.P.1, Dermatology Prof. 1, Assoc. Prof. 1, A.P. 1, Psychiatry-Prof. 1, Assoc. Prof 1, A.P. 1 Paediatrics- Prof.1, Assoc. Prof.1, A.P.2, Gen. Surgery- Prof 1. Assoc. Prof 3, A.P.7, Opthalmology- Prof 1, Assoc. Prof 1, A.P.1, Orthopaedics- Prof.1, Assoc. Prof 1, A.P.2, Oto-Rhino Lgy. (E.N.T.)- Prof. 1, Assoc. Prof. 1, A.P. 1, Obst. & Gynae- Prof 1, Assoc. Prof. 1, A.P.3, Anaesthesiology- Prof 1, Assoc. Prof. 3, A.P.5, Radio-Diagnosis- Prof 1, Assoc. Prof 2, A.P.2, Apply with in 1 week from date of published. PRINCIPAL & DEAN

RICH UNIVERSE NETWORK LIMITED CIN: L51100UP1990PLC012089

R/O: IInd FLOOR, 7/125, C-2, SWAROOP NAGAR, KANPUR - 208002, U.P. E-Mail: investors@richuninet.com, WEB:www.richuninet.com Ph: 0512-2540293 UN-AUDITED QUARTERLY RESULTS FOR THE PERIOD ENDED ON

30TH SEPTEMBER, 2022

_		,		
SI. No.	PARTICULARS	30th September, 2022	Corresponding 3 months ended in the previous 30th September, 2021	
1.	Total Income from Operations	-1.77	0.55	823.67
2.	Net Profit / (Loss) for the period			
П	(before Tax, Exceptional and/or			
П	Extraordinary items#)	-5.64	-4.61	6.38
3.	Net Profit / (Loss) for the period			
Ш	before tax (after Exceptional and/or			
Ш	Extraordinary items#)	-5.64	-4.61	6.38
4.	Net Profit / (Loss) for the period			
Ш	after tax (after Exceptional and/or			
Ш	Extraordinary items#)	-5.64	-4.61	5.23
5.	Total Comprehensive Income for the			
П	period [Comprising Profit / (Loss) for			
Ш	the period (after tax) and Other			
Ш	Comprehensive Income (after tax)]	-5.64	-4.61	5.23
6.	Equity Share Capital	725.28	725.28	725.28
7.	Reserves (excluding Revaluation			
Ш	Reserve)	5.39	-	14.89
8.	Earnings Per ShareofRs 10/-each			
П	(for continuing and discontinued			
	operations)-			
	1. Basic:	0.00	0.00	0.007
H	2. Diluted:	0.00	0.00	0.007

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formatof the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity.

For RICH UNIVERSE NETWORK LIMITED SHASHWAT AGARWAL

Place: Kanpur Date: 11.11.2022

DIN: (00122799)

All amts. In Lakhs

अचल सपात्तया के विक्रयार्थ इ-नालामा हुतु सावजानक सूचना

ं इंदिया इन्फोलाइन हार्स्सिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिजात) (आईआईएफएल-एचएफएल) निगमित कार्यालयः भरवण्ड सं. १८ उद्दोग विहार फेज-IV गुडगांव-122015 (हरियाणा) तथा शार कार्यालयः ३०/३०ई, ऊपरी भूतल, मुख्य शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ मार्ग, जगुआर शोरूम के समीप, मोती नगर, नई दिल्ली के पास बंधककृत अचल सम्पत्ति का विक्रय। जबकि आईआईएफएल–एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी (''एओ'') ने, आईआईएफएल–एचएफएल की देयराषियों की वसूली हेतु, निम्नलिखित सम्पत्ति / यों का "'जैसी हैं जहां हैं आधार एवं जैसी हैं ज हैं आधार'' पर विक्रय करने के एकाधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खातों /प्रोस्पेक्ट नंबरों के तहत अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना के अनुपालन में उनका अधिग्रहण क लिया था। विक्रय जो है, वह अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइटः www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई–नीलामी मंच के माध्यम से किया जाएगा।

2. श्रीमती गायत्री अ	17 सितंबर 2021 रु. 18,44,308/- (रुपये अट्ठारह लाख चौवालिस जार तीन सौ आठ मात्र)	संपत्ति के समस्त वह माग तथा अंश जो फ्लैट सं. ई-200 के रूप में हैं जिनका अधिमापन 55 वर्ग गज है, जो द्वितीय तल, मनसा राम पार्क, ब्लॉक-ई, उत्तम नगर, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली, भारत, पिनकोड-110059 में स्थित हैं	17 अक्टूबर 2022 तिथि 02 नवंबर 2022 के अनुसार कुल बकाया	रु. 16,82,700 / — (रुपये सोलह लाख बयासी हजार सात सौ मात्र)	07 दिसं. 2022 11.00 — 14.00 बजे संपर्क : श्री जय कुमार 9910999001
3. श्रीकांत सिंह	SHY CHA CHI SHO SHAY	पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली, भारत,	कुल बकाया		9910999001
L10049872 एवं IL10077068)	बोली वृद्धि राशि	1411419-110009 1 KAK (रु. 17,61,476/- (रुपये सत्रह लाख इकसठ हजार चार सौ छिहत्तर मात्र)	धरोहर राशि जमा (धराज)	धराज अंतिम तिथि 09 दिसं. 2022 को 5 बजे तक
	रु. 25,000 / — (रुपये पच्चीस हजार मात्र)		ता विद्यार गाँग)	रु. 1,68,270 / — (रुपये एक लाख अड़सठ हजार दो सौ सत्तर मात्र)	ई—नीलामी की तिथि/समय 14 दिसं. 2022 11.00—13.00 बजे

से किए जाएंगे। खातों के विवरण इस प्रकार हैं: क) खाता का नाम:- आईआईएफएल होम फाइनेंस लि., ख) बैंक का नाम - स्टैंडर्ड चार्टड बैंक लि., ग) खाता सं: :-9902879, उसके बाद लोन नंबर, घ) आईएफएससी कोड: SCBL0036001, ड.) बैंक पता : स्टैंडर्ड चार्टड बैंक, 90 एम.जी. मार्ग, फोर्ट, मुंबई-40001

- ।. ई—नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि वे अपने विवरणों को पर्याप्त समय पूर्व सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://www.bankeauctions.com के पंजीकृत कर लें और उन्हें इस हेत् लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी व पासवर्ड सुजित करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपने "निविदा प्रपत्र", धराज के भुगतान विवरणों, केवाईसी एवं पैन कार्ड की प्रतियों के साथ ऊपर वर्णित शाखा कार्यालय में प्रस्तुत/प्रेषित करने होंगे।
- बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव को, स्तंभ ''बोली वृद्धि राषि'' के अंतर्गत अंकित राषि के गुणक में बढ़ाना होगा। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनटों में बोलीदान किया जाता तो समापन समय 5 मिनटों के लिए स्वतः ही बढ जाएगा। सफल बोलीदाता को बोली राषि की 25 प्रतिषत राषि (धराज का समायोजन करने के उपरान्त) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी तथा बोली राषि की
- शेष 75 प्रतिषत रकम प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय की अभिपृष्टि किए जाने की तिथि से 15 दिवसों के अंदर जमा करनी होगी। समस्त जमाएं तथा भगतान जो हैं, वो भगतान के निर्धारित . क्रेता को सम्पत्ति से संबंधित समस्त करों एवं दरों लागतों सहित उपकर, लागू स्टांप शुल्क, शुल्कों एवं किसी अन्य संवैधानिक देयराषि अथवा अन्य देयताओं जैसे नगर निगम कर, विद्यु
- प्रभारों, भूमि एवं समस्त अन्य आकरिमक लागतों, प्रभारों का भूगतान वहन करना होगा। बोलीदाताओं को सलाह है कि वे ई-नीलामी विक्रय कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अपनी बोलियां जमा करने से पहले नीलामी विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों तथा नीलामी आवेदन प्रपट्ट
- हेतु वेबसाइट https://bankeauctions.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देख लें। विवरणों. सहायता प्रक्रिया तथा ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रिषक्षण के लिए प्रस्तावित बोलीदातागण जो हैं. वे सेवा प्रदाता से ई-मेल आईडी support@bankeauctions.com. सहायता हेल्पलाइ नंबर्स: /7291981124/25/26 पर संपर्क कर सकते हैं तथा किसी सम्पत्ति से संबंधित पूछताछ के लिए श्री जीतेंद्र गुप्ता से /9999682823ए ई-मेल: jitendra.gupta1@iifl.com से संपर्क
- एतद्द्वारा उपरोक्त ऋणकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे उन घरेलू वस्तुओं को 7 दिवसों के अंदर एकत्र कर लें, जो भौतिक आधिपत्य लिए जाने के समय पर प्रतिभूत पिरसम्पित्त स्थल पर पड़ी हुई होंगी, अन्यथा आईआईएफएल-एचएफएल किसी भी परिस्थिति में सम्पत्ति की किसी हानि हेत् उत्तरदायी नहीं होगी। आगे ऋणकर्ता /ओं को एतदद्वारा सचित किया जाता है कि यदि वे उपरोक्त कथित वस्तओं को एकत्र करने में विफल रहते हैं. तो वस्तओं को विधि—व्यवस्था के अनसार बेच दिया जाएगा
- . उपरोक्त अनुबंधित समय के अंदर सफल बोलीदाता / नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी चरण में भुगतान में चूक किए जाने की स्थिति में, विक्रय निरस्त कर दिया जाएगा तथा पहले चूकता की गई राशि (घराज सहित) को जब्त कर लिया जाएगा तथा सम्पत्ति को फिर से बेचने के लिए रख दिया जाएगा। 10. एओ के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे बिना कोई कारण बताए ही निविदा / नीलामी के नियमों एवं शर्तों को स्थगित / निरस्त कर सकते हैं अथवा उन्हें बदल सकते हैं। निविदा / नीलामी
- में किसी विवाद की स्थिति में आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा। सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 30 दिवसीय सांविधिक विक्रय सूचना

ऋणकर्ता को एतदद्वारा अधिसचित किया जाता है कि वे निविदा / नीलामी की तिथि से पूर्व ऊपर अंकितानसार राषि का अद्यतनीकत ब्याज एवं आनुषंगिक व्ययों के साथ भगतान कर दें। भगतान करने में विफर रहने पर. सम्पत्ति की नीलामी की जाएगी ∕ उसे बेच दिया जाएगा तथा शेष देयराषियों, यदि कोई निकलती हों, की वसूली ब्याज एवं लागत के साथ की जाएगी। ान : नर्ड दिल्ली, दिनांक : 11.11.202 स्ता./— प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिर

न्यू ऐरा लिजिंग एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 23, मोतिया खान, रानी झाँसी रोड, नई दिल्ली- 110055 ई–मेल: neweraleasingfinance@gmail.com, CIN: L67120DL1984PLC018800, द्रमाष: : 011-68888824

30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित उद्वरित वत्तीय परिणाम (Rs. In La क्र. विवरण समाप्त तिमाही समाप्त वार्षि								
큙.	विवरण	समाप्त तिमाही						
सं०		30.06.2022 (अनअंकेक्षित)	31.03.2022 (अंकेक्षित)	30.06.2021 (अनअंकेक्षित)	31.03.2022 (अंकेक्षित)			
1	संचालन से कुल आय	1.29	13.72	1.60	18.51			
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(0.36)	3.52	0.95	0.09			
3	कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(0.36)	3.52	0.95	0.09			
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(0.36)	3.52	0.95	0.09			
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाम/ (हानि) शामिल (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	(0.36)	3.52	0.95	0.09			
6	चुकता इक्वीटी शेयर पूँजी (सममूल्य रू० 10/- प्रति शेयर्स)	400.00	400.00	400.00	400.00			
7	रिजर्व (रीवैलुवेसन रिजर्व को छोड़कर जैसा कि वर्ष 2021-2022 के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया	-	-	-	(43.42)			
8	प्रति शेयर आय (सममूल्य रू० 10/- प्रति शेयर्स) संचालन ज	री एवं बंद करने के	लिए					
	मूल::	(0.0091)	0.0879	0.0237	0.0022			
	तरल:	(0.0091)	0.0879	0.0237	0.0022			

- कम्पनी केवल एक व्यावसायिक गतिविधि करती है इसलिए आईएनडी के तहत खण्ड रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।
- 2. उपरोक्त परिणाम लेखापरीक्षक सतिमति द्वारा समीक्षा कर एवं निदेशक मंडल द्वारा उनके सम्बन्धित 10 नवम्बर, 2022 को सम्पन्न बैठक
- 3. पिछली अवधि के आकड़े वर्तमान अवधि के आकड़े की पुष्टि के लिए जहाँ भी आवश्यक थे। पुर्नगठित/पुनः वर्गीकृत किए गये हैं।
- 4. कम्पनी पर इण्डियन एकाऊटिंग स्टेन्डर्ड 1 अप्रैल, 2019 से लागू है।

मंडल की ओर से कृते न्न्यू ऐरा लिजिंग एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड हस्ता०/-रोहताश शर्मा (निर्दे शक)

DIN: 06804507

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 11.11.2022

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

एवन मर्केटाइल लिमिटेड

पंजी. कार्या.: ऊपरी बेसमेंट, स्मार्ट भारत मॉल, भूखंड सं. आई-2, सेक्टर-25ए, नोएडा (उत्तर प्रदेश-201301), दूरभाष : 0120-3355131 सीआईएन : एल17118यूपी1985पीएलसी026582

30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के

एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

						(रु. लाख में)
विवरण	30.09.2022 को समाप्त 3 माह	30.06.2022 को समाप्त पूर्ववर्ती 3 माह	तद्नुरूपी 3	30.09.2022 को समाप्त पूर्ववर्ती अवधि के वर्ष—प्रतिवर्ष	के वर्ष-प्रतिवर्ष	31.03.2022 को समाप्त वा
	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	माह (अलेखापरीक्षित)	के आंकड़े (अलेखापरीक्षित)	के आंकड़े (अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
الماريخ				2-21-21		0//22/00/00/00
परिचालनों से कुल आय	162.63	155.07	159.4 -12.89	317.7 -41.32	308.57	624.83
अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि), (कर, आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व #)		-16.51	-12.09	-41.32	-15.84	-188.83
कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के	-24.81	-16.51	-12.89	-41.32	-15.84	-188.83
उपरांत #)						
कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि)	-24.81	-16.51	-12.89	-41.32	-15.84	-189.19
(आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के						
उपरांत #)	-24.81	-16.51	-12.89	-41.32	-15.84	-189.19
अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट]		-10.51	-12.05	-41.32	-15.04	-103,13
समता अंश पूंजी	74774	74774	74774	74744		74774
आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर), पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित	-	-	-	(#)	-	-
तुलन-पत्र में निदर्शितानुसार						
आय प्रति अंश (रु. 10 / – प्रत्येक का)						
(परिचालनरत् एवं बंद परिचालनों हेतु)						
1. मूल :	(0.33)	(0.22)	(0.17)	(0.55)	0.21	(2.53)
2. तरलीकृत :	(0.33)	(0.22)	(0.17)	(0.55)	0.21	(2.53)

. उपर्युक्त लेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणामों की, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत अपेक्षितानुसार लेखापरीक्षक समिति द्वारा समीक्षा की गयी, 11 नवंबर 2022 को आयोजित निदेशक मंडल की अपनी बैठक में इनका अनुमोदन व अभिलेखन किया गया तथा लेखापरीक्षक द्वारा इनका सीमित समीक्षागत प्रतिवेदन दिया गया।

2. उपरोक्त विवरण, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध त्रैमासिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों अर्थात् (www.bseindia.com, www.cse-india.com) और कंपनी की वेबसाइट अर्थात (www.avonmercantile.in) पर उपलब्ध हैं। कृते एवन मर्केंटाइल लिमिटेड

हस्ता./— (दिशा सोनी) कंपनी सचिव

एसीएस : 42944



R R Financial Consultants Limited CIN: L74899DL1986PLC023530

Regd Off:- 412-422, 4th Floor, Indraprakash Building, 21 Barakambha Road, New Delhi-110001 Phone:- 011-23354802 Email id:-cs@rrfcl.com Website:- www.rrfcl.com

Extract of Consolidated Un-audited Financial Results for the 2nd Quarter/ Half Year ended on 30th September, 2022 (₹ in lakhs)

	Consolidated									
Particulars	8	Quarter ende	d	Half Y	Year ended					
	30.09.2022 (Unaudited)	30.06.2022 (UnAudited)		30.09.2022 Unaudited	30.09.2021 Unaudited	31.03.2022 (Audited)				
otal income from operations (net)	461.23	506.28	361.65	967.51	748.19	1456.89				
et Profit / (Loss) for the period before Tax exceptional and/or Extraordinary items)	27.86	48.50	11.98	76.36	52.18	53.27				
et Profit / (Loss) for the period before tax after Exceptional and/or Extraordinary items)	27.86	48.50	11.98	76.36	52.18	53.27				
et Profit / (Loss) for the period after tax (after xceptional and/or Extraordinary items)	26.08	42.50	11.98	68.58	47.18	46.90				
otal Comprehensive Income for the period comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) nd Other Comprehensive Income (after tax)]	21.14	41.00	12.14	62.14	51.01	41.96				
quity Share Capital	1,106.94	1,106.94	1,106.94	1,106.94	1,106.94	1,106.94				
eserves (excluding Revaluation Reserve) as hown in the unaudited Balance Sheet of the revious year	8*	(5)		8*		3,461.80				
arnings Per Share (face value of ₹ 10/- each) or continuing and discontinued operations) asic lluted	0.19 0.19	0.37 0.37	0.11 0.11	0.56 0.56	0.46 0.46	0.38 0.38				

Key Standalone Un-audited Financial information for the 2nd Quarter/ Half Year ended on 30th September, 2022.

	Standalone								
Particulars		Half Y	Year ended						
		30.06.2022 (UnAudited)		The second secon	****	31.03.2022 (Audited)			
Total income from operations (net)	17.38	19.74	15.18	36.88	43.21	78.05			
Profit before tax	0.76	0.65	0.49	1,17	1.32	2.31			
Profit after tax	0.46	0.55	0.49	0.77	1.32	0.17			

sh

- The above is an extract of the detailed format of 2nd Quarter/ Half year ended Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of standalone/ consolidated financial results along with notes are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on Company's website www.rrfcl.com.
- The above results has been prepared in compliance with recognition and measurement principles of companies (Indian accounting standards) rules, 2015 (IND AS), as amended by the companies (Indian accounting standards) (Amended rules), 2016 prescribed under section 133 of company act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the
- The above results were reviewed and recommended by Audit Committee and approved by Board of Directors at its meeting
- Previous period figures have been reclassified/ regrouped wherever considered necessary to conform to the current figures. For and on behalf of the Board of R R Financial Consultants Limited

Place: New Delhi Date: 11th September, 2022

Rajat Prasad Managing Director DIN: 00062612

(रा त्याख में)

ईस्ट बिल्डटेक लिमिटेड सीआईएन: L74999DL1984PLC018610

पंजीकृत कार्यालयः डी–3/2, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फंज–11, नई दिल्ली–110020 दूरभाषः 011-47105100, ईमेलः contact@ebl.co.in, वेबसाइट www.ebl.co.in

30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (छ. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	₹	माप्त तिमाही	हेतु	समाप्त छ	समाप्त वर्ष हेतु	
V 1.		30.09.2022	30.06.2022	30 09 2021	30.09.2022	30.09.2021	31 03 2022
		(अलेखापरीकि)	(अलेखापरीवित)	(अलेखापरीकित)	(अलेखापरीवित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय (निवल)	6.41	9.22	5.55	15.63	21.01	59.76
2	आपवादिक एवं कर पूर्व लाम/(हानि)	(5.14)	(1.46)	(4.69)	(6.60)	(3.05)	3.00
3	कर पश्चात् अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक मदों के उपरांत)	(3.83)	(1.10)	(3.47)	(4.93)	(2.27)	1.70
4	कुल व्यापक आय	(3.83)	(1.10)	(3.47)	(4.93)	(2.28)	1.71
5	समता अंश पूंजी	190.76	190.76	190.76	190.76	190.76	190.76
6	आय प्रति अंश (ईपीएस) (असाधारण मदों के उपरांत) (फ. 10/- प्रत्येक का) (अवार्षिकीकृत) क) मूल ख) तरलीकृत	(0.20) (0.20)	(0.06) (0.06)	(0.18) (0.18)	(0.26) (0.26)	(0.12) (0.12)	0.09

1. दिनांक 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के खंडवार राजस्व, परिणामों और नियोजित पूंजी का विवरण

क्र. -	विवरण	₹	नमाप्त तिमाही	हेतु	समाप्त छ	समाप्त वर्ष हेतु	
सं.	1	30 09 2022	30.06.2022	30 09 2021	30 09 2022	30.09.2021	31.03.2022
		(अलेखापरीक्रि)	(अलेखापरीकित)	(अलेखापरीकित)	(अलेखापरीकित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीबित)
1.	खण्डवार राजस्व (क) खण्डवार-ए (रियल एस्टेट/कंस्ट्र) (ख) खण्डवार-बी (परामर्शन)	3.63	3.63	3.65	7.26	7.28	14.56 15.15
	(ग) खण्डवार—सी (व्यापार) (घ) अनाबंटित	2.78	5.38 0.20	1.90	8.16 0.20	13.73	30.05
	कुल	6.41	9.22	5.55	15.63	21.01	59.76
2.	घटाः 1) प्रत्येक खण्डवार से कर एवं ब्याज प्राप्ति से पहले परिचालन खण्डवार परिणाम (लाभ (+)/हानि(-) से प्राप्त अंतर खण्डवार राजस्व निवल बिकी/आय	6.41	9.22	5.55	15.63	21.01	59.76
	क) खण्डवार-ए (रियल एस्टेट/कंस्ट्र.) (ख) खण्डवार-बी (परामर्शन)	(0.77)	(0.53)	(0.76)	(1.30)	(1.01)	(2.26) 15.10
	(ग) खण्डवार—सी (व्यापार) (घ) अनाबॉटेत	(2.31)	1.99 (1.07)	0.05 (2.57)	1.99 (3.38)	4.73 (4.07)	5.79 (9.86)
	कुल	(3.07)	0.39	(3.28)	(2.68)	(0.35)	8.77
	घटाः 1) ब्याज 2) अन्य अनाबंटित ब्यय निवल नेट ऑफ	2.07	1.85	1.41	3.92	2.70	5.77
	3) अनाबंटित आय		1				
	कर पूर्व कुल लाम	(5.14)	(1.46)	(4.69)	(6.60)	(3.05)	3.00
3.	नियोजित पूजी (खण्डवार परिसंपत्तिया—खण्डवार दाकित्व) क) खण्डवार—ए (रियल एस्टेट/कस्ट्र.) (ख) खण्डवार—बी (परामर्शन) (ग) खण्डवार—सी (व्यापार) (घ) अनाबंटित	662.94 0.76 (20.87) (11.44)	662.43 (1.97) (12.58) (12.65)	663.66 0.99 (6.97) (25.36)	662.94 0.76 (20.87) (11.44)	663.66 0.99 (6.97) (25.36)	663.16 16.09 (0.32 (42.61
	कल	631.39	635.23	632.32	631.39	632.32	636.32

- र उपरोक्त लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षक समिति द्वारा समीक्षा कर दी गई है तथा परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा 11,11,2022 क आयोजित की गई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया गया है। इनकी समीक्षा संवैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिन्होंने खण्डवार परिणा
- के उपरांत उस पर एक अस्पष्ट राय प्रकट की है। सेबी के विनियम 33 के अंतर्गत अपेक्षितानुसार सीमित समीक्षा, संवैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा पूर्ण कर दी गई है।

पूर्ववर्ती वर्ष / अवधि के आंकड़ों को, जहां कहीं अभी अनिवार्य समझा गया है, पुनर्समृहित / पुनर्य्यवरिधत किया गया है।

. इन वित्तीय परिणामों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 (संशोधितानुसार के अनुसार तैयार किया गया है। कंपनी के संवैधानिक लेखापरीक्षकों ने सेबी (सुधीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015

के विनियम 33 के निबंधनों के अंतर्गत परिणामों की सीमित समीक्षा की है।

कृते ईस्ट बिल्डटेक लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 11.11.2022

घुसूदन चोखानी (प्रबंध निदेशक) (डीआईएन: 00307234

न्यू ऐरा लिजिंग एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: 23, मोतिया खान, रानी झाँसी रोड, नई दिल्ली- 110055 ई-मेल: neweraleasingfinance@gmail.com, CIN: L67120DL1984PLC018800, दूरभाष: 011-69999350 30 सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही एवं अर्धवार्षिक के अनअंकेक्षित उद्वरित एकीकृत वित्तीय परिणाम

	५० सितन्बर, २०२२ का समान्त तिमाहा एवं अथवावि	ं	तत उद्घारत एक	ાજુલ ાવલાય પ	गरणान		(रू० लाखों में)
क्र. सं०	विवरण	समाप्त तिमाही (अनअंकेक्षित)			समाप्त ३ (अनअं	समाप्त वार्षिक (अंकेक्षित)	
		30-09-2022	30-06-2022	30-09-2021	30-09-2022	30-09-2021	31-03-2022
1	संचालन से कुल आय	1.32	1.29	1.45	2.62	3.05	18.51
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(0.54)	(0.36)	(0.62)	(0.90)	0.33	0.09
3	कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(0.54)	(0.36)	(0.62)	(0.90)	0.33	0.09
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(0.54)	(0.36)	(0.62)	(0.90)	0.33	0.09
5	अविध के लिए कुल व्यापक आय (अविध के लिए लाभ/ (हानि) शामिल (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)) (संदर्भ नोट 2)	(0.54)	(0.36)	(0.62)	(0.90)	0.33	0.09
6	चुकता इक्वीटी शेयर पूँजी (सममूल्य रू० 10/- प्रति शेयर्स)	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
7	रिजर्व (रीवैलुवेसन रिजर्व को छोड़कर जैसा कि पिछले वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया	-	- 1	- 1	-	-	(43.42)
8	प्रति शेयर आय (सममूल्य रू० 10/- प्रति शेयर्स) संचालन जारी एवं बंद करने के लिए			57V (/	y		
	ु मूल::	(0.0135)	(0.0091)	(0.0155)	(0.0226)	0.0082	0.0022
	तरल:	(0.0135)	(0.0091)	(0.0155)	(0.0226)	0.0082	0.0022

- 1. सेबी (सूची ओब्लीगेसन एण्ड प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अर्न्तगत 30 सितम्बर, 2022 को उपरोक्त समाप्त तिमाही एवं अर्धवार्षिक के उद्धरित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विस्तारित प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्ज में दाखिल किया गया।
- 2. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षक सतिमति द्वारा समीक्षा कर एवं निदेशक मंडल द्वारा उनके 10 नवम्बर, 2022 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित किये गये। 3. पिछली तिमाही/वार्षिक अवधि के आकड़े जहाँ भी आवश्यक थे, पुर्नगठित/पुनः वर्गीकृत किए गये हैं।
- 4. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा की गई। 5. कम्पनी के उत्पादों के लिए केवल एक खण्ड है।

बोर्ड की ओर से

कृते न्यू ऐरा लिजिंग एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड हस्ता०/-

रोहताश शर्मा (निर्देशक) DIN: 06804507

स्थान: नई दिल्ली तिथि: 11.11.2022

www.readwhere.com

स्थान : नोएडा

दिनांक : 11.11.2022

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

हसमुखी, ग्राम प्रधान